



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 02 अगस्त—08, 2003 (श्रावण 11, 1925)  
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 02—AUGUST 08, 2003 (SRAVANA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 02 अगस्त, 2003

सं. 439, दिनांक, 30 जून 2003—थल सेना अनुदेश 37/78  
तथा इसमें जारी संशोधन सेना अनुदेश 4/96 के अन्तर्गत राष्ट्रपति  
सहर्ष सीधे स्थाई नियुक्ति करते हैं :

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थायी कमीशन

लैफ्टि. के पद पर (परख पर)

डी आर-10553के, अतुल बाली, 08.04.2003

डी आर-10554एम, पारुल लोहड़ा, 17.04.2003

थल सेना अनुदेश 15/79 तथा इसमें जारी संशोधन सेना अनुदेश  
5/96 के अन्तर्गत राष्ट्रपति, 05 वर्ष के लिए सहर्ष निम्नलिखित  
नियुक्ति करते हैं :

अल्पकालीन कमीशन

लैफ्टि. के पद पर (परख पर)

डी एस-12085एन, बी गोपालकृष्णन, 30.12.2002

डी एस-12086डब्ल्यू, भूपिन्द्र सिंह, 24.01.2003

डी एस-12088एफ, अरूण कुमार के वी, 06.02.2003

डी एस-12089के, विशाल शर्मा, 08.02.2003

डी एस-12090वाई, कमलपाथे के, 19.02.2003

डी एस-12092के, सौगन रे, 08.03.2003

डी एस-12093एम, (कुमारी) वर्णना कृष्णन, 10.03.2003

डी एस-12094पी, विजया कुमार आर, 13.03.2003

जे. एल. शर्मा

लैफ्टि. जनरल

डी जी डी एस

सैन्य अभियंता सेवायें

सं. 440, दिनांक 26 जून, 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित एस.

डबल्यू. अधिकारी को उनके सामने दर्शाई गयी तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं। आफोसर अगले दो वर्षों तक परखावधि पर होंगे।

- एम.ई.एस.-189657, मनोज कुमार, 14 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-508668, संजय कौल, 23 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-303906, रामेश्वर दास गर्ग, 26 जून 2000 (पूर्वा.)  
 एन वाई ए, विजय रंजन, 27 जुलाई 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-300405, कृष्णा दाऊ मंडल, 20 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-405443, वैभव विश्वकर्मा, 19 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-508385, रमेश चन्द्र, 26 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एन वाई ए, दिलीप कुमार झा, 29 अगस्त 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-607751, नगेन्द्र कुमार, 30 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-486776, संजीव कुमार, 22 अक्टूबर 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-486778, राम नन्दन कुमार, 23 अगस्त 2001 (पूर्वा.)  
 एन वाई ए, सतीश कुमार सिंह, 02 मई 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-303891, केवल कृष्ण मुजराल, 30 मई 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-304756, नन्द किशोर मलहन, 30 मई 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-304396, चरज लाल, 26 जून 2002 (पूर्वा.)  
 एन वाई ए, भरत लाल, 05 अगस्त 2002 (पूर्वा.)  
 एन वाई ए, अमजद खान, 22 जून 2001 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-206326, परेश नाथ घोष, 28 जून 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-206460, कमल कुमार चटर्जी, 10 अगस्त 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-304184, तारा सिंह, 08 जुलाई 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-206540, गोरा चंद डे, 13 अगस्त 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-201333 परिमल चौधरी, 09 दिसम्बर 2002 (पूर्वा.)  
 एम.ई.एस.-405448, संतोष कुमार जैन, 29 अगस्त 2002 (पूर्वा.)

वी चावड़ा  
 अपर सचिव

#### वायु शाखा

सं. 441, तारीख 02 जुलाई 03.---राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या ऐ मु./24732/पी पी ओ/पी सी II/25/यू एस/डी एयर IV दिनांक 15 फरवरी 90 उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन तथा ब्रेबेट (परखाधीन) प्रदान करते हैं ये अफसर स्थायी कमीशन तथा ब्रेबेट (परखाधीन) प्रदान करने की तारीख यानि कि 16 दिसम्बर 2000 से उड़ान वेतन पाने के अधिकारी हैं।

भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

उड़ान नेविगेटर शाखा

फ्लाईंग अफसर नितिन कुमार पी भौसले (26339), 16 दिसम्बर 2000 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत स्थायी कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

भूतपूर्व वायुसैनिक फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर वामसी कृष्णा पलावल्ली (27242), आर अशोक बाबू (27243), मनोज कुमार सिंह (27244), जिम्मी जॉनसन (27245), गणेश कुमार एस (27247), प्रणय डागा (27249), रमन कुमार (27250), ब्रह्मानंद मिश्रा (27251), चिट्टी रेड्डी मोहन राव (27252), मनोज कुमार (27253), दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

पारिभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर अजय कुमार शर्मा (27268), विजय कुमार (27269) दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

प्रशासनिक शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर अक्षत चतुर्वेदी (27246), राजेश कुमार एम एस (27254), एम विदया सागर रेड्डी (27255), एम मयूरन (27256), विकास (27257), राकेश कुमार (27258), नीरज गुप्ता (27259), शएब अहमद (27260), मनीष शर्मा (27261), मनोज कुमार (27262), विनय भूषण मेहर (27263), नितिन अरोड़ा (27264), एस वसंत कुमार पिल्लई (27265), दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से विकास तनेजा (27248) 21 दिसम्बर 2002 से।

पारिभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर दीपक चौधरी (27266), डी गणपति (27267), ऋषि राज मोहिन्दु (27270), अभिषेक आदर्श (27271), सम्राट यादव (27272), दिनेश कुमार तिवारी (27273), तुला राम (27274), विक्रम ठाकुर (27275), शक्ति सिंह कलान (27276) दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वासेमु/22258/1/पी ओ-3 (ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (वायु-III) दिनांक 19 अक्टूबर 82 के उपबन्धों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी मकैनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर सिद्धार्थ राज पालीवाल (27310), गजेन्द्र प्रताप सिंह (27311), विवेक चतुर्वेदी (27312), मोहित शर्मा (27313), कुमार पराशु (27314), प्रवीणा कुमार अरलागुड्डा (27315), एम

दिल्ली बाबु (27316), बी कार्तिकेयन (27317), एम कार्तिकेयन (27318), शशिधर (27319), प्रवीन नरसिम्हामूर्ति डोन्नी (27320), सुविन कुमार एस बी (27321), प्रशांत कुमार शर्मा (27322), प्रसन्ना आर बाडीगर (27323), राजकुमार पी (27324), सी कलीमेंट चेल्लैया अनंतराज (27325), प्रवीन प्रभाकरन नायर (27326), रविन्द्र अग्रवाल (27327), रामनाथ हर्षन पी (27328), ज्योति रविन्द्र (27329), धीरज यादव (27331), तलसानिया हीरेनकुमार मनसुखभाई (27332), मुकेश यादव (27333) दिनांक 06 जनवरी 2003 से अभिषेक बंसल (27419) दिनांक 16 जनवरी 2003 से सतीश एस (27424), जयराजशेखर अमरनाथ कोडाली (27425) दिनांक 17 जनवरी 2003 से मुवंकंरा मुरलीधरन (27429), प्रसून प्रभाकरन (27430), अनिल कुमार पी (27431) दिनांक 20 जनवरी 2003 से।

#### वैमानिक अभियांत्रिकी इलैक्ट्रिकल शाखा

फलाईंग अफसर परवेज असलम (27334), श्री रमन मुरलीधरन (27335), प्रबोध कुमार उदय कुमारन (27336), प्रत्युश आनंद (27337), मोहित कुमार वर्मा (27338), गौरव शुक्ल (27339), प्रीतम कुमार (27340), गौरव शर्मा (27341), कमलेश कुमार झा (27342), जयप्रकाश प्रशांत (27343), शिवेन्द्र नाथ (27344), अविनाश दुबे (27345), धर्मवीर यादव (27346), चैतन्य ए जी एन (27347), चार्ल्स सोलोमन (27348), बी कार्तिक (27349), शंकररामन रामचंद्रन (27350), शंमुगम राजेश (27351), सुब्रमनियम कृष्णामूर्ति (27352), मधुकेकरा श्रीनिवासुलु (27353), पंकज कुमार डे (27354), गिरीधर श्रीधर (27355), चैतन्य पावन वोलेटी (27356), संतोष कुमार चव्हाण (27357), दीपक व्यास (27358), किशोर एन (27359), सबूर अहमद (27360), किरन कृष्णन (27361), अभिषेक प्रेमी (27362), चकित गुलाटी (27363), सुखविंदर सिंह (27364), मधुर थापलियाल (27365), सिद्धार्थ शर्मा (27366), एस प्रसाद (27367), विक्रम सिंह उल्सई (27368), प्रतीक वशिष्ठ (27369), एन प्रवीन (27370), वांगखेमायम खेलनजीत (27371), सरवणन सेल्वराज (27372), पंकज यादव (27373), जयसीलन मारिया कलौडिस (27374), सुदीप्त मुखर्जी (27375), पेरला वैकटेश राजेश (27376), किरन कुमार केंचनकुप्पे परमसिवैया (27377), ओरुनैटी सुधीर बाबु (27378), मोहम्मद जावेद खान (27379), अनिल पंत (27380), थाउनाओजाम ब्रोजेन सिंह (27381), अनूप राज वार्शने (27382), मुरलीश्वरन राजेन्द्रन (27383), अजित कुमार कायथ यतीन्द्र दास (27384), दीपक गर्ग (27385), सचिन सोन्ना (27386), अब्दुल्ला जाहिद (27387), हीरेन प्रमोद भाई कोठारी (27388), केसव सुरेश कुमार (27389), प्रीतिश मिश्र (27390), गुरजाप सिंह (27391), अविजित सिंह चौहान (27392), एम जे बालामुरुगन (27393) दिनांक 06 जनवरी 2003 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत अल्प सेवा कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं।

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक अभियांत्रिकी मकैनिकल शाखा

फलाईंग अफसर देनेश हैरिक जोसेफ (27330) दिनांक 06 जनवरी 2003 से

##### वैमानिक अभियांत्रिकी इलैक्ट्रिकल शाखा

फलाईंग अफसर संतोष कुमार वायाकोडन (27394), विरिञ्चला राघवेन्द्र किशोर (27395), वेणु वालेरी (27396), शशांक शर्मा (27397), सानु नायर के एस (27398), अंसुमन समाजपट (27399), सुनील कुमार पांडे (27400), एल राजागोपाल (27401), राजेन्द्र सिंह (27402), पोन्नप्पा एम बी (27403), क्षितिज वशिष्ठ (27404), गौरव प्रताप (27405), विक्रम चैत्ता (27406), विजय मालवीय (27407), अनवर षाजी सि (27408), शहाब अहमद (27409), अरविन्द आर (27410), संदीप यादव (27411), तनुज वर्मा (27412), के जयंदन (27413), मोइरांथेम अमरजीत सिंह (27414), गौरव शर्मा (27415), बून मरि जोसेफ एन्टोनी (27416) दिनांक 06 जनवरी 2003 से सतीश कुमार (27432) दिनांक 20 जनवरी 2003 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना अनुदेश 2/73 के उपबन्धों के तहत अल्प सेवा कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं

#### भारतीय वायु सेना

##### वैमानिक अभियांत्रिकी इलैक्ट्रिकल

फलाईंग अफसर ओमनाथ चौधरी (27147), दिनांक 08 जुलाई 2002 से

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वासेमु/24745/4/पी पी ओ/पीसी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23 अप्रैल 01 के उपबन्धों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन तथा विंग प्रदान करते हैं। ये अफसर औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन व विंग प्रदान करने की तारीख यानि कि 21 दिसम्बर 2002 से उड़ान घेतन पाने के अधिकारी हैं।

#### भारतीय वायु सेना

##### उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फलाईट कैंडेट फलाईंग अफसर के रैंक में

फलाईंग अफसर वीना सहारण (27277), तेजी उप्पल (27278), दीपिका दादलानी (27279), निधी हांडा (27280) 21 दिसम्बर 2002 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या वासेमु/एस 24745/4/पी पी ओ/पीसी-1/184/डी एस/डी (वायु-III) दिनांक 23

अप्रैल 01 के उपबन्धों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते हैं।

#### भारतीय वायु सेना

##### प्रशासनिक शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

फ्लाईंग अफसर दक्षिणा भारती धस्माना (27281), रूपा पी पिल्लई (27282), प्रभजोत कौर घुमन (27283), दीपीका नेहरा (27284), नीता ठाकुर (27285), नलिनी कालरा (27286), अस्मिता पुरुषोत्तम धवाडे (27287), एन चित्रा (27288) दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

##### पारिभारिकी शाखा

फ्लाईंग अफसर अनुराधा (27289) वर्षा सक्सेना (27290) मीनाक्षी (27291) जिन्सी थॉमस (27292) आरती भदोरिया (27293) रुचि खरे (27294) नीतू नेहरे (27295) दिनांक 21 दिसम्बर 2002 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना अनुदेश 1/91 तथा वायु सेना अनुदेश शुद्धि पत्र 4/2002 के उपबन्धों के तहत शाखा कमीशन प्रदान करते हैं।

#### भारतीय वायु सेना

भूतपूर्व वायुसैनिक फ्लाईंग अफसर के रैंक में सिर्फ वेतन के लिए दो वर्ष की पूर्व दिनांक के साथ

##### वैमानिक अभियांत्रिकी मकैनिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर नरेश कुमार (27298) भीखाजी रामाजी धाबी (27299) अरूण कुमार पांडे (27300) दिनांक 17 जनवरी 2003 से।

##### वैमानिक अभियांत्रिकी इलैक्ट्रिकल शाखा

फ्लाईंग अफसर हरी चन्द मान (25814) एन नागराजन (25815) दिनांक 18 दिसम्बर 99 से राजेन्द्र सिंह (26681) पलानीचामी गणेशन (26682) राम सकल सिंह (26683) दिनांक 14 दिसम्बर 2001 से अजीत कुमार घोष (27301) दिनांक 17 जनवरी 2003 से।

संजय वी कुटे

स्कवाइन लीडर

ए.डी.पी.ओ. 3 डी.

#### वायु शाखा

संख्या 442 दिनांक 02 जुलाई 2002.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, पुष्टि करते हैं:-

#### भारतीय वायु सेना

##### उड़ान पायलट शाखा

भूतपूर्व फ्लाईट कैडेट फ्लाईंग अफसर के रैंक में

हंसल जोसेफ सिकेरिया (26081), मनदीप चहल (26084),

क्षितिज गुप्ता (26087), करपुराणु अनिल कुमार (26090), संदीप बैनर्जी (26091), अमित बंसल (26093), जसवंत पटेल (26094), सतीस पवार (26096), करककल्ला उदयचंद्र राव (26097), अमिन महाजन (26099), वल्लुपराम्बिल राजन राकेश (26101), गौरव खोलिया (26103), जितिन हरी नायक (26105), विजय कुमार तुकाराम शेलके (26108), प्रणव सिसोदिया (26112), अभिनव महाजन (26113), अंशु पुरी (26114), अंशुल सक्सेना (26118), सुरज कुमार (26119), नितिन सुब्रमनियम (26120), दिनांक 17 जून 2000 से।

संजय वी. कुटे

स्कवाइन लीडर

ए.डी.पी.ओ. 3 डी.

#### थलसेना विभाग

सं. 443, दिनांक 27 जून 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:-

#### नियमित सेना

##### वायु रक्षा तोपखाना कोर

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी.डी.) के पद में

सूबेदार राम निवास (जेसी-223899डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (टि.आई.एफ.सी.) के पद में

सूबेदार प्रेमा कुमार के वी (जेसी-185943एच), 05 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

सब्सटेंटिव सूबेदार (जी.डी.) के पद में

नायब सूबेदार घुराहु राम (जेसी-297583वाई), 30 दिसम्बर 2002/03 जुलाई 2002\*

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-297422डब्ल्यू), 02 फरवरी 2003/10 जुलाई 2002\*

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-297543एक्स), 20 जनवरी 2003/10 जुलाई 2002\*

नायब सूबेदार ख्याली राम यादव (जेसी-297652के), 12 मार्च 2003/27 अगस्त 2002\*

नायब सूबेदार रादेश सिंह (जेसी-297782एम), 11 मार्च 2003/27 अगस्त 2002\*

नायब सूबेदार राम पुजन सिंह (जेसी-296985के), 04 सितम्बर 2002/01 सितम्बर 2002\*

नायब सूबेदार तावीड पाथीग भाई (जेसी-297506के), 01 सितम्बर 2002

नायब सूबेदार हरि शंकर मीना (जेसी-297702के), 13 जनवरी 2003/01 सितम्बर 2002\*

नायब सूबेदार रघुजा कुमार के आर (जेसी-297901एक्स), 22 नवम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002\*

नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह बाली (जेसी-297654पी), 07 फरवरी 2003/11 दिसम्बर 2002\*

नायब सूबेदार वानी बेंकटा प्रसाद पोटाबत्तूनी (जेसी-297932एक्स), 25 जनवरी 2003/21 दिसम्बर 2002\*

नायब सूबेदार सुकदेवा महाराना (जेसी-297504वाई), 01 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

नायब सूबेदार यदुनाथ सिंह (जेसी-297461पी), 26 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार राम सुरत यादव (जेसी-297650वाई), 11 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार शंकर हुल्लोली (जेसी-297680डब्ल्यू), 16 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार जॉन के जे (जेसी-297657एच), 10 मार्च 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार पिरिती जगन्नाथ रेड्डी (जेसी-297744डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार श्रीकांत सिंह (जेसी-297891वाई), 10 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार मुंडे रामकिसन संदिपन (जेसी-297852ए), 06 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह शेखावत (जेसी-297856डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार नछीम अली (जेसी-297938वाई), 14 फरवरी 2003/01 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-297308वाई), 25 मार्च 2003/16 फरवरी 2003\*

नायब सूबेदार दिदार सिंह (जेसी-297246के), 04 अप्रैल 2003/01 मार्च 2003\*

नायब सूबेदार बिक्रमजीत सिंह (जेसी-296457ए), 12 मार्च 2003/01 मार्च 2003\*

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-297615डब्ल्यू), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार अरबिंदा पाल (जेसी-297918एल), 20 मार्च 2003/01 मार्च 2003\*

नायब सूबेदार वीरप्पा हुगर (जेसी-297307डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2003/21 मार्च 2003\*

सब्सटेंटिव सूबेदार (टि.आई.एफ.सी.) के पद में

नायब सूबेदार रोहताश सिंह यादव (जेसी-296788एफ), 17 फरवरी 2001/01 जून 2000\*

नायब सूबेदार विजया कुमार एच एम (जेसी-297568के), 03 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-297594एल), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार सूरज पाल (जेसी-297591एक्स), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार देश राम (जेसी-297634एफ), 25 मार्च 2003/01 मार्च 2003\*

नायब सूबेदार गनेसन एस (जेसी-297629डब्ल्यू), 08 अप्रैल 2003/01 अप्रैल 2003\*

नायब सूबेदार श्यामाधर सिंह चौहान (जेसी-297637पी), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-297595एन), 01 अप्रैल 2003

नायब सूबेदार तारा चंद (जेसी-297635के), 01 मई 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (ए.आई.जी.) के पद में

नायब सूबेदार बालाकृष्ण एम वी (जेसी-297375के), 01 जनवरी 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार रछपाल सिंह (जेसी-296524ए), 01 अप्रैल 2003

सब्सटेंटिव सूबेदार (एस.के.टि.) के पद में

नायब सूबेदार माला राम बिश्नोई (जेसी-296786डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2003

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

सेना सेवा कोर (पशु परिवहन)

पक्के रिसालदार मेजर के रैंक में

पे ए रिसालदार मेजर रमेश कुमार (जेसी-680132डब्ल्यू), 03.03.2003/01.03.2003\*

पक्के रिसालदार के रैंक में

पे ए रिसालदार ऐन प्रेम कुमार (जेसी-680377एम), 28.08.2002/01.08.2002\*

पे ए रिसालदार ऐन सी मित्रा (जेसी-680363एम), 01.11.02

पे ए रिसालदार कृष्णा बाबू (जेसी-680364पी), 20.01.2003/01.01.2003\*

पे ए रिसालदार कामेशवर सा (जेसी-680367एच), 05.02.2003/01.01.2003\*

पे ए रिसालदार रूद मल (जेसी-680375पी), 01.02.2003

पे ए रिसालदार डी आर गुजर (जेसी-680381पी), 01.02.2003

\*दु नायब सूबेदार व नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।

नायब रिसालदार के रैंक में (ए एस एच)

दफादार मुख्तियार सिंह (नं. 3379946एम अब जेसी 680629 डब्ल्यू), 25.01.2003/01.10.2002\*

दफादार केशव कुमार (नं. 6468375डब्ल्यू अब जेसी 680631एल), 24.02.2003/01.11.2002\*

दफादार दया कृष्ण (नं. 6467857वाई अब जेसी 680632एक्स),  
27.01.2003/01.11.2002\*

दफादार दिनेश चन्द्रा पान्डे (नं. 6467651 एफ अब जेसी 680630एम), 22.01.2003/01.01.2003\*

दफादार ओम प्रकाश (नं. 6470672एच अब जेसी 680634वाई),  
17.02.2003/01.01.2003\*

दफादार चक्रधारी (नं. 6464771पी अब जेसी 680635एफ), 09.  
01.2003

दफादार सीता राम (नं. 6467885एल अब जेसी 680640एम),  
10.03.2003/01.02.2003\*

दफादार शिओजी राम मीना (नं. 6468284डब्ल्यू अब जेसी 680641पी), 07.02.2003/01.02.2003\*

दफादार दिलीप कुमार घोष (नं. 6468122एफ अब जेसी 680642एन), 01.02.2003

दफादार श्रीधरन एस (नं. 6468170 एफ अब जेसी 680643ए),  
17.02.2003/01.02.2003\*

दफादार बाला कृष्णन नितुवात (नं. 6468157एक्स अब जेसी 680644एच), 15.02.2003/01.02.2003\*

दफादार पौंगाली दास आर (नं. 6464847के अब जेसी 680647डब्ल्यू), 01.03.2003

दफादार रूम सिंग (नं. 6469462डब्ल्यू अब जेसी 680650डब्ल्यू),  
25.03.2003/01.03.2003\*

\*दु नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।

नायब सूबेदार के रैंक में (एस एच जी डी)

हवलदार एस के मिश्रा (नं. 6372368एच अब जेसी 680628के),  
10.01.2003/01.10.2002\*

हवलदार एम के उथैया (नं. 6372436एल अब जेसी 680636के),  
08.02.2003/01.11.2002\*

हवलदार ए के सिंग (नं. 6372622एफ अब जेसी 680637के),  
24.02.2003/01.12.2002\*

हवलदार गिरीश चन्द (नं. 6372969एन अब जेसी 680638एन),  
31.12.2002/01.12.2002\*

हवलदार छब्बी लाल थापा (नं. 6373031एम अब जेसी 680639एम), 01.12.2002

हवलदार चन्द प्रकाश (नं. 6372949के अब जेसी 680645एल),  
03.03.2003/01.02.2003\*

हवलदार जी दयालन (नं. 6386889एफ अब जेसी 680646डब्ल्यू),  
21.03.2003/01.02.2003\*

\*दु नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता दी जायेगी।

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार एन जे थॉमस (सं. 15378036डब्ल्यू अब जेसी-375006एफ), 01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (ओ पी स्पेशल) के रैंक में

हवलदार बालेन्द्र सिंह (सं. 14234879वाई अब जेसी-374887वाई),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 14233757एच अब जेसी-374888एफ),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार के एन प्रजापति (सं. 14234103एल अब जेसी-374889के), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार काश्मीर चन्द (सं. 14237515एक्स अब जेसी-374890वाई), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार संत राम (सं. 14241165 एन अब जेसी-374891एफ),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार सी झारिसबाबू (सं. 14238826 एक्स अब जेसी-374890के), 01 दिसम्बर 2002.

हवलदार नारायण नायकोजी (सं. 14242786वाई अब जेसी-374893एम), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार दामोदर सिंह (सं. 14242291एम अब जेसी-374894पी),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार बृज भूषण सिंह (सं. 14240483एल अब जेसी-374895एक्स), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार एस के शर्मा (सं. 14242839एम अब जेसी-374896),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 14243473एम अब जेसी-374897एच),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार तेज पाल (सं. 14271155वाई अब जेसी-374898एल),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार विजय कंवर (सं. 14246772डब्ल्यू अब जेसी-374899एन), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार रमा शंकर मिश्रा (सं. 14241270के अब जेसी-374900एक्स), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार सरबन कुमार (सं. 14242256के अब जेसी-374901ए),  
01 दिसम्बर 2002

हवलदार राज कुमार (सं. 14242750ए अब जेसी-374902एच),  
21 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार देवन नायर एस (सं. 14247066एफ अब जेसी-374903एल), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार अमल कुमार रॉय (सं. 14247419डब्ल्यू अब जेसी-374904एन), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार नईमुल्ला खान (सं. 14247393एम अब जेसी-374905डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार प्रवीनदाशन पिल्लई (सं. 14232848ए अब जेसी-374906वाई), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार आर पी एस चौहान (सं. 14241855एक्स अब जेसी-374907एफ), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार तारा सिंह (सं. 14243145वाई अब जेसी-374908के), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार जे. सी. कौशिक (सं. 14299716वाई अब जेसी-374909एम), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार सुरेश भगत (सं. 14236399एन अब जेसी-374910एफ), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार एस के तिवारी (सं. 14231603एक्स अब जेसी-374911के), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार हरिदास री एन (सं. 14236457एम अब जेसी-374912एम), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार एस चन्द्र सारस्वत (सं. 14245327ए अब जेसी-374913पी), 23 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार देव दत्त (सं. 14240256एल अब जेसी-374914एक्स), 04 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 14248892एन अब जेसी-374915ए), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार रक्षपाल सिंह तोमर (सं. 14249017एक्स अब जेसी-374916एच), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार नारायणन करेप्पथ (सं. 14249934एफ अब जेसी-374917एल), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार मनोहरन चन्दा (सं. 14249964वाई अब जेसी-374918एन), 17 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार रामू सिद्धप्पा शेरोल (सं. 14242657वाई अब जेसी-374919डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार अवतार कपूर (सं. 142450477एल अब जेसी-374920एल), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार दिवान सिंह (सं. 14245436एक्स अब जेसी-374921एन), 13 फरवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल दास (सं. 14250692डब्ल्यू अब जेसी-374922डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार एम सुब्रामणियम (सं. 14250708डब्ल्यू अब जेसी-374923वाई), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार पी एन शुक्ला (सं. 14250730एफ अब जेसी-374924एफ), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार अमिन चन्द (सं. 14250856एफ अब जेसी-374925के), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार रामाश्रय कुमार अरुण (सं. 14250777एम अब जेसी-374926एम), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार जोगिन्द्र कुमार (सं. 14250921डब्ल्यू अब जेसी-374927पी), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार एस एस रावत (सं. 4059279ए अब जेसी-374928एक्स), 01 दिसम्बर 2002

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव (सं. 14245887एक्स अब जेसी-374841डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2002

हवलदार अच्युता नंद जेना (सं. 14245908एच अब जेसी-374855डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2002

हवलदार राधे लाल (सं. 14246152ए अब जेसी-374872डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार भजन सिंह (सं. 14246400एल अब जेसी-374873वाई), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार पारस नाथ राय (सं. 8025550एल अब जेसी-374929ए), 01 जनवरी 2003

हवलदार किशौरी प्रसाद (सं. 14237258एल अब जेसी-374930पी), 01 जनवरी 2003

हवलदार नंदलाल चन्देल (सं. 14246540एक्स अब जेसी-374931एक्स), 01 जनवरी 2003

हवलदार कविन्द्रा महतो (सं. 14247628एन अब जेसी-374932ए), 01 जनवरी 2003

हवलदार अभयपाल सिंह (सं. 14247686एक्स अब जेसी-374933एच), 01 जनवरी 2003

हवलदार राम चरन (सं. 14247341डब्ल्यू अब जेसी-374935एफ), 01 जनवरी 2003

हवलदार सत्य बीर (सं. 14247477ए अब जेसी-374936डब्ल्यू), 01 जनवरी 2003

हवलदार बदी प्रसाद (सं. 14247883ए अब जेसी-374956के),  
01 फरवरी 2003

हवलदार सारू राम सैकिया (सं. 14237771एम अब जेसी-374957एम), 01 फरवरी 2003

हवलदार पवित्र मोहन साहू (सं. 14249206एफ अब जेसी-374976एक्स), 01 मार्च 2003

हवलदार बिपिन बिहारी सेठी (सं. 14249416एफ अब जेसी-375036वाई), 01 मार्च 2003

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार बलवन सिंह (सं. 14251271ए अब जेसी-374958पी),  
01 फरवरी 2003

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 14240193एन अब जेसी-374939के),  
01 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14239486एम अब जेसी-374945एक्स), 01 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2002 से दी जायेगी)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 14243717पी अब जेसी-374663वाई),  
01 जून 2002

हवलदार जे ए तुका राम (सं. 14243639एच अब जेसी-374948एल), 01 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार बृज मोहन (सं. 14241164एल अब जेसी-374241एन),  
01 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार अरून जय प्रसाद (सं. 14237001ए अब जेसी-373770एन), 29 दिसम्बर 2002

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

हवलदार मोहन सिन्हा (सं. 14246225एफ अब जेसी-374782एफ), 16 जनवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

हवलदार गुलाब प्रसाद शर्मा (सं. 14245376एन अब जेसी-374814एम), 01 सितम्बर 2002

हवलदार अनंत राम (सं. 14235882एल अब जेसी-374845एम),  
01 अक्टूबर 2002

हवलदार निरंजन बेहरा (सं. 14244164डब्ल्यू अब जेसी-374968वाई), 01 फरवरी 2003

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 14244264एफ अब जेसी-374848ए),  
01 अक्टूबर 2002

हवलदार राम बिलास (सं. 14237824ए अब जेसी-374849एच),  
01 अक्टूबर 2002

सेना सेवा कोर

(यान्त्रिक परिवहन)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार घन श्याम (नं. 13832743एक्स अब जेसी-662488एफ),  
07 फरवरी 2003

हवलदार दिलीप कुमार दास (नं. 13867788डब्ल्यू अब जेसी-662489के), 11 फरवरी 2003

हवलदार डी हजारिका (नं. 13864403एच अब जेसी-662490वाई), 04 फरवरी 2003

हवलदार देवी सरन शर्मा (नं. 13873933डब्ल्यू अब जेसी-662491एफ), 01 नवम्बर 2002

हवलदार किशन लाल मलिक (नं. 13874484एफ अब जेसी-662492के), 07 फरवरी 2003

हवलदार दया शंकर प्रसाद (नं. 13864555के अब जेसी-662493एम), 01 फरवरी 2003

हवलदार सुकुमारन पी (नं. 13864605के अब जेसी-662494पी),  
17 फरवरी 2003

हवलदार विजय सिंह (नं. 13875591पी अब जेसी-662495एक्स),  
14 फरवरी 2003

हवलदार कौशल किशोर (नं. 13865542वाई अब जेसी-662496ए), 01 नवम्बर 2002

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद सिंह (नं. 13865609एम अब जेसी-662497एच), 01 नवम्बर 2002

द्व(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

त्र(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2001 से दी जायेगी)

च(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)



हवलदार अजब सिंह (नं. 13875657ए अब जेसी-662498एल),  
30 जनवरी 2003ऋ

हवलदार राजन पी के (नं. 13865653डब्ल्यू अब  
जेसी-662499एन), 10 फरवरी 2003ऋ

हवलदार तारकेशवर सिंह (नं. 13865769एम अब  
जेसी-662500एक्स), 22 जनवरी 2003ल

हवलदार सुभाष चन्द्र मिश्रा (नं. 13874531एन अब  
जेसी-662501ए), 27 जनवरी 2003ल

हवलदार महेन्द्र सिंह छिल्लर (नं. 13870893एक्स अब  
जेसी-662502एच), 27 जनवरी 2003ल

हवलदार धर्म देव सिंह (नं. 13874953वाई अब  
जेसी-662503एल), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार मदन प्रसाद राय (नं. 13864471डब्ल्यू अब  
जेसी-662504एन), 22 जनवरी 2003ल

हवलदार अनिल कुमार गोगई (नं. 13864381पी अब  
जेसी-662505डब्ल्यू), 06 फरवरी 2003ल

हवलदार राम सिंह (नं. 13875275डब्ल्यू अब जेसी-662506वाई),  
26 फरवरी 2003ल

हवलदार दुलानन्द मंडल (नं. 13864988एफ अब  
जेसी-662507एफ), 21 फरवरी 2003ऋ

हवलदार हंस राज (नं. 13874954एफ अब जेसी-662508के),  
21 फरवरी 2003ऋ

हवलदार सतीश चन्द्र शर्मा (नं. 13875308एम अब  
जेसी-662509एम), 21 फरवरी 2003ऋ

ऋ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

ल(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

ऋ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2003 से दी जायेगी)

हवलदार दया राम (नं. 13875175एल अब जेसी-662443एफ),  
12 दिसम्बर 2002द

हवलदार बी सुब्रामनियां (नं. 13864540एफ अब  
जेसी-662444के), 10 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार कृष्ण कुमार (नं. 13874622एक्स अब  
जेसी-662445एन), 08 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार राधा कान्ता सिंघा (नं. 13875186एक्स अब  
जेसी-662446पी), 09 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार चन्दन सिंह (नं. 13869328एन अब जेसी-662447एक्स),  
01 सितम्बर 2002

हवलदार बीरेन्द्र सिंह (नं. 13865341ए अब जेसी-662448ए),  
12 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार दिगेश चन्द्र पौल (नं. 13875449एल अब  
जेसी-662449एच), 01 सितम्बर 2002

हवलदार अमर सिंह दसोगा (नं. 13875386एन अब  
जेसी-662450एक्स), 12 दिसम्बर 2002ऋ

द(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2002 से दी जायेगी)

त्र(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

ऋ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार ए एलेक्जेंडर (नं. 13865391एल अब जेसी-662451ए),  
10 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार दिलीप कुमार नायक (नं. 13865412के अब  
जेसी-662452एच), 01 सितम्बर 2002

हवलदार प्रभु नाथ राय (नं. 13875493पी अब जेसी-662453एल),  
16 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार सुखन्दू प्रमाणिक (नं. 13875528ए अब  
जेसी-662454एन), 18 दिसम्बर 2002ऋ

हवलदार सुरेश चन्द्र त्रिपाठी (नं. 13875408एफ अब  
जेसी-662455डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2002ल

ऋ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

ल(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

हवलदार जडेजा हरि हर सिंह किरित सिंह (नं. 13868872एच  
अब जेसी-662456वाई), 26 दिसम्बर 2002द

हवलदार ब्रज बिहारी औझा (नं. 13874751एक्स अब  
जेसी-662457एफ), 12 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार पुंडलिक पाटिल भ्रमा (नं. 13869174एम अब  
जेसी-662458के), 11 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार राजन पी के (नं. 13865315ए अब जेसी-662459एम),  
01 सितम्बर 2002

हवलदार सुरेश चन्द्र (नं. 13865346वाई अब जेसी-662460एफ),  
09 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार श्याम बिहारी चौहान (नं. 13865447एम अब  
जेसी-662461के), 24 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार महाबीर सिंह (नं. 13865467ए अब जेसी-662462एम),  
20 दिसम्बर 2002त्र

हवलदार टीका राम बिसवकर्मा (नं. 13873044एफ अब जेसी-662463पी), 21 जनवरी 2003अ

हवलदार परवाकर सुन्दराय (नं. 13867713वाई अब जेसी-662464एक्स), 03 फरवरी 2003ल

हवलदार रनसिंग पोपट मनोहर (नं. 13873791एम अब जेसी-662465ए), 25 जनवरी 2003अ

हवलदार उमेश (नं. 13869369एक्स अब जेसी-662466एच), 26 दिसम्बर 2002त्र

डू(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जायेगी)

त्र(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

अत्र(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

ल(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2001 से दी जायेगी)

हवलदार प्राण नाथ तिवारी (नं. 13870717ए अब जेसी-662467एल), 01 अक्टूबर 2002

हवलदार पूरनन्दा गोगाई (नं. 13863840डब्ल्यू अब जेसी-662468एन), 26 दिसम्बर 2002अ

हवलदार श्याम थापा (नं. 13867864एक्स अब जेसी-662469डब्ल्यू), 31 दिसम्बर 2002अ

हवलदार हरि हर (नं. 13867990के अब जेसी-662470एल), 23 जनवरी 2003अ

हवलदार दिवान सिंह (नं. 13864671एम अब जेसी-662471एन), 27 जनवरी 2003अ

हवलदार मौ. रियाजुल हक (नं. 13874713एफ अब जेसी-662472डब्ल्यू), 26 दिसम्बर 2002अ

हवलदार रनबीर सिंह (नं. 13875625एक्स अब जेसी-662473वाई), 24 जनवरी 2003अ

हवलदार राम धनेश्वर भागत (नं. 13864881एम अब जेसी-662474एफ), 26 दिसम्बर 2002अ

हवलदार रामेश्वर दयाल (नं. 13875627एच अब जेसी-662475के), 01 नवम्बर 2002

हवलदार राजेश कुमार शुक्ला (नं. 13875635एफ अब जेसी-662476एम), 01 नवम्बर 2002

हवलदार बिश्वानाथ चौबे (नं. 13865660एम अब जेसी-662477पी), 27 जनवरी 2003अ

हवलदार कृष्ण सिंह (नं. 6470556ए अब जेसी-662478एक्स), 24 जनवरी 2003अ

हवलदार देव नारायण सिंह (नं. 13865672एफ अब जेसी-662479ए), 27 दिसम्बर 2002अ

हवलदार शिव नाथ सिंह (नं. 13875784पी अब जेसी-662480पी), 31 जनवरी 2003अ

हवलदार अमर सिंह (नं. 13875027ए अब जेसी-662481एक्स), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार होशियार सिंह (नं. 13865711पी अब जेसी-662482ए), 22 जनवरी 2003अ

हवलदार गुरमेश सिंह (नं. 13864662एल अब जेसी-662483एच), 24 जनवरी 2003अ

हवलदार राम सिंह (नं. 13875025पी अब जेसी-662484एल), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार राम बाबू शर्मा (नं. 13864553वाई अब जेसी-662485एन), 30 दिसम्बर 2002अ

हवलदार सदानन्द (नं. 13864527एक्स अब जेसी-662486डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2002

हवलदार अब्दुल सलाम (नं. 13868724एक्स अब जेसी-662487वाई), 31 जनवरी 2003रू

अत्र(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2002 से दी जायेगी)

अ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

अ(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2002 से दी जायेगी)

रू(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2003 से दी जायेगी)

रा. चतुर्वेदी  
अवर सचिव

सं. 444, दिनांक 30 जून 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां/नियुक्तियां करते हैं:--

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

ओम शरण (14530673एच अब जेसी-757353एल), 30 जनवरी 2003/04 जनवरी 2003\*

नेम सिंह (14530559एल अब जेसी-757383एल), 15 फरवरी 2003/23 दिसम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

मोहम्मद कुदरत हुस्सैन (14554294एल अब जेसी-757351ए), 11 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

प्रताप चन्द सयाल (14553372एल अब जेसी-757160एल), 11 सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002\*

दयानिधि नायक (14553420ए अब जेसी-757301पी), 30 दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002\*

सुभाष चन्द्रा गोच्ची (14553429पी अब जेसी-757304एच), 01 जनवरी 2003

हिमान्तु शेखर झा (14597720एफ अब जेसी-757299एच), 01 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002\*

रुद्र भन तिवारी (14553432पी अब जेसी-757350एक्स), 27 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

परन्तानन जी (14553416एक्स अब जेसी-757300एम), 01 जनवरी 2003/01 अक्टूबर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टेक के रैंक में

गोपाल कृष्णा वर्मा (14533247ए अब जेसी-757322एल), 18 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

राम चन्द्र यादव (14541308एफ अब जेसी-757326एफ), 27 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

रघुनाथ शर्मा (14543641वाई अब जेसी-757364एक्स), 01 फरवरी 2003

बलराज सिंह (14543587डब्ल्यू अब जेसी-757324डब्ल्यू), 16 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

देव राजन वी (14538986डब्ल्यू अब जेसी-757325वाई), 12 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

बचन सिंह नेगी (14541229एम अब जेसी-757346पी), 07 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

संजीव कुमार पथक (14605091एम अब जेसी-757332पी), 31 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

हवा सिंह (14543630एम अब जेसी-757345एम), 21 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

अवदेश कुमार यादव (14475643एच अब जेसी-757323एन), 15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

दिनेश यादव ए (14604794एफ अब जेसी-757327के), 17 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

षमशेर सिंह (14543631पी अब जेसी-757348ए), 25 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

शंकर पाटिल (14606535एक्स अब जेसी-757330के), 13 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

राज कुमार धिमाब (14543628पी अब जेसी-757344के), 15 जनवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

सुरेन्द्रन पी आर (14606533एम अब जेसी-757329पी), 14 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

गोपाल लाल श्रीवास्तव (14604797पी अब जेसी-757328एम), 16 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

ब्रन्दावन साहु (14543486एच अब जेसी-757217पी), 21 अक्टूबर 2002/01 सितम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार अरमोर के रैंक में

सुन्दर प्रकाश (14543495के अब जेसी-757314एम), 06 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

करम चन्द (14543555एन अब जेसी-757315पी), 14 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

प्रदीप कुमार राजखो (14543796एन अब जेसी-757317ए), 04 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

धरम सिंह (14543405एक्स अब जेसी-757313के), 12 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

अशोक कुमार राय (14544484के अब जेसी-757343एफ), 18 फरवरी 2003/01 जनवरी 2003\*

मंत प्रसाद (14543969ए अब जेसी-757333एक्स), 04 फरवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

प्रकाश चन्द्रा प्रकाश (14543374एच अब जेसी-757312एफ), 23 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

जय नाथ प्रसाद सिंह (14543802डब्ल्यू अब जेसी-757318एच), 15 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

रवीन्द्र कुमार पाण्डे (14543806एम अब जेसी-757320ए), 22 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

बिक्रम सुंडी (14543163ए अब जेसी-757311वाई), 18 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

राम लाल (14543921एम अब जेसी-757321एच), 16 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

मनोरंजन अदक (14543873एक्स अब जेसी-757319एल), 16 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी)

बसव राज आर रोट्टी (14533375एक्स अब जेसी-757551डब्ल्यू), 01 मार्च 2003/04 फरवरी 2003\*

शिव शरण डी (14532911एच अब जेसी-757335एच), 04 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

बलिराम पाण्डे (14532428वाई अब जेसी-757334वाई), 04 फरवरी 2002/01 नवम्बर 2002\*

तिप्पना मुचनम (14533373एम अब जेसी-757339वाई), 28 जनवरी 2003/21 दिसम्बर 2002\*

एस बी बी नायर (14533344एक्स अब जेसी-757338डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2003/21 दिसम्बर 2002\*

डिया चरण ठाकुर (14533405के अब जेसी-757358के), 01  
फरवरी 2003

रामलाल यादव (14532357एच अब जेसी-757270ए), 29  
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

बलराम सिंह (14533530एन अब जेसी-757356वाई), 01 फरवरी  
2003/04 जनवरी 2003\*

तीजा ओरान (14531417एन अब जेसी-757268एच), 06 जनवरी  
2003/01 अक्टूबर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफबी)

कौर सिंह (3376256एक्स अब जेसी-757557एक्स), 25 फरवरी  
2003/15 दिसम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार इलकिटुकल (एम वी)

एस एन मुखर्जी (14534954डब्ल्यू अब जेसी-757310डब्ल्यू),  
08 फरवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

कामी राजन वी पी (14535167एफ अब जेसी-757280के), 23  
दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (जी सी ई)

जैनील के (14540784एच अब जेसी-757368एच), 06 फरवरी  
2003/14 अक्टूबर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर ए एफ वी(एडी) में

दीन बन्धु पाल (14556818ए अब जेसी-757275वाई), 24  
दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002\*

अय नन्दन (14557610के अब जेसी-757261वाई), 01 दिसम्बर  
2002

अय दयाल सिंह (14541894पी अब जेसी-757263के), 01  
दिसम्बर 2002

गंभीर सिंह (14557525एफ अब जेसी-757277के), 31 दिसम्बर  
2002/01 नवम्बर 2002\*

मनोहर लाल (14557269एक्स अब जेसी-757276एफ), 22  
दिसम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार बेल्टडर

अर पी मिश्रा (14536541एल अब जेसी-757362एम), 01 फरवरी  
2003

हवलदार से नायब सूबेदार अपहोल

पुन नारायण झा (14555711वाई अब जेसी-757390एफ), 14  
फरवरी 2003/23 नवम्बर 2002\*

भरत सिंह (14555995एन अब जेसी-757340एन), 10 फरवरी  
2003/19 जनवरी 2003\*

हवलदार से नायब सूबेदार लिम्ब मेकर

पताडे पान्दुरंग श्रीपति (14550283एफ अब जेसी-757278एम),  
20 दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राफ्टमेन

रघुबीर सिंह (14532506एल अब जेसी-757266एक्स), 21  
दिसम्बर 2002/01 दिसम्बर 2002\*

हवलदार से नायब सूबेदार मेशिनिष्ट के रैंक में

जगदीशा के के (14623582एल अब जेसी-757224एल), 31  
दिसम्बर 2002/14 अक्टूबर 2002\*

सुभाष चन्द्रा लाल (14533406एम अब जेसी-757254एच), 01  
जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'ए' के रैंक में

गोपाल सिंह भादूरिया (14570176एफ अब जेसी-757499वाई),  
02 मार्च 2003

जगदीश सिंह यादव (14570932एच अब जेसी-757496एल),  
03 मार्च 2003/02 मार्च 2003\*

राज बीर (14562895एल अब जेसी-757489पी), 03 मार्च  
2003/02 मार्च 2003\*

सुरेन्द्र सिंह शर्मा (14564152एफ अब जेसी-757490के), 02  
मार्च 2003\*

जीवन राम सौदा (14571104के अब जेसी-757498डब्ल्यू), 02  
मार्च 2003

सतीश कुमार सिंह (14570215पी अब जेसी-757493एक्स), 02  
मार्च 2003

स्वप्न कुमार राय (14570893पी अब जेसी-757495एच), 02  
मार्च 2003

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'बी' के रैंक में

मोहमद रबील होख मोल्ला (14568310एच अब  
जेसी-757148के), 03 सितम्बर 2002/01 अगस्त 2002\*

धर्मारज सिंह (14572468एच अब जेसी-757228एफ), 26  
नवम्बर 2002/01 अक्टूबर 2002\*

राधा कृष्णन (14556140एक्स अब जेसी-757283एक्स), 16  
जनवरी 2003/11 मई 2002\*

अजब सिंह (14571789एन अब जेसी-757286एल), 02 जनवरी  
2003/01 अक्टूबर 2002\*

उपेन्द्र नाथ तिवारी (14573067ए अब जेसी-757289वाई), 01  
जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

राम सभा चौबे (14573665एक्स अब जेसी-757290एन), 30  
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

अनील कुमार एस (14573634एक्स अब जेसी-757292वाई),  
01 जनवरी 2003/01 नवम्बर 2002\*

उपेन्द्र सिंह (14573871एफ अब जेसी-757291डब्ल्यू), 23  
दिसम्बर 2002/01 नवम्बर 2002\*

रूप किशोर (14584979वाई अब जेसी-757511पी), 02 मार्च  
2003

सुरेश चन्द्रा (14578102एफ अब जेसी-757487के), 02 मार्च 2003

यरप्पाइज (14566968के अब जेसी-757295एम), 02 जनवरी 2003/05 नवम्बर 2002\*

एस मरियप्पन (14574030एल अब जेसी-757417एल), 24 फरवरी 2003/05 जनवरी 2003\*

चन्द्रेश्वर पान्डे (14563137ए अब जेसी-757388एफ), 22 फरवरी 2003/08 दिसम्बर 2002\*

राजाराम सिंह (14571978एक्स अब जेसी-757373वाई), 22 मार्च 2003/01 अक्टूबर 2002\*

मिथिलेश पान्डे (14572400एफ अब जेसी-757374एफ), 22 फरवरी 2003/01 अक्टूबर 2002\*

अबय कुमार बिश्वास (14564706पी अब जेसी-757503डब्ल्यू), 02 मार्च 2003\*

इन्द्र पाल (14578465एल अब जेसी-757488एम), 02 मार्च 2003

बीर्बल राम (14586097डब्ल्यू अब जेसी-757512एक्स), 03 मार्च 2003/02 मार्च 2003\*

लखबीर सिंह (14561600एक्स अब जेसी-757387वाई), 09 मार्च 2003/15 दिसम्बर 2002\*

सुनील कुमार (14575493के अब जेसी-757466एन), 20 फरवरी 2003/13 फरवरी 2003\*

आर जगन्नाथन (14561614एक्स अब जेसी-757502एन), 03 मार्च 2003/02 मार्च 2003\*

सुरेन्द्र सिंह (14577011एल अब जेसी-757486एफ), 02 मार्च 2003

श्याम प्रकाश (14582684के अब जेसी-757510एम), 03 मार्च 2003/02 मार्च 2003\*

दिवाकरन के (14544447एम अब जेसी-757500एच), 02 मार्च 2003

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक 'सी' के रैंक में

सुरेन्द्र कुमार (14572801डब्ल्यू अब जेसी-757507एम), 02 मार्च 2003

कृष्ण दत्त (14563533डब्ल्यू अब जेसी-757505एफ), 02 मार्च 2003

अजित सिंह (14578609एच अब जेसी-757282पी), 03 जनवरी 2003/01 दिसम्बर 2002\*

\*पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है।

एस. के. खुराना  
अवर सचिव

सं. 445, दिनांक 27 जून 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेवा

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर

बी. एच. एम शिंदे मनोहर का. (नं. 2775933पी) (जेसी-826119एच), पदोन्नति दिनांक 01.05.2003

पेड कार्यकारी सुबेदार गाने लक्ष्मण राव (जेसी-826067एक्स), 01 मई 2003

जय राम वर्मा  
अवर सचिव

सं. 446, दिनांक 30 जून 03.--थल सेना अनुदेश 15/79 तथा उसमें जारी संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन से अर्धस्थायी मेजर के पद पर

मीनू सिद्धू (डी एस-11981पी), 23.03.03

ऐलेक्सजेन्डर एम जोन (डी एस-11983ए), 28.03.03

जे. एल. शर्मा  
ले. जनरल  
डी जी डी एस

सं. 447, दिनांक 01 जुलाई 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगेडियर (एवं समकक्ष) से मेजर जनरल (एवं समकक्ष) पद पर

जी सी बोरूहा (एम आर-4602एल), 04.10.2002 (वैतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.10.2002 से दी जाती है)

मूल मेजर जनरल रैंक प्रदान करने वाली रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र, भाग-1, खण्ड-4 में 05.04.2003 को प्रकाशित जहां तक इसका सम्बन्ध उपरोक्त अधिकारी से है उसे रद्द किया जाता है।

पी. बन्दोपाध्याय  
ए वी एम  
अतिरिक्त म नि स से चि सेवा

सं. 448, दिनांक 01 जुलाई 03.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

**स्थायी कमीशन**

सर्जन कोमोडोर से सर्जन रियर एडमिरल के पद पर

पी सिवादास (एम आर -2251एच) (75112एच), 01.01.2003

कर्नल से ब्रिगेडियर के पद पर

श्रीमति एस मुकजी (एम आर-4449ए) 01.06.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02.05.2002 से दी जाती है।

मेजर/ले. कर्नल (टी एस) से ले. कर्नल (सलैक्शन)

ताराचन्द (एन टी आर -16431डब्ल्यू), 07.07.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.04.2002 से दी जाती है।

एस सी शर्मा (एन टी आर -16497एम), 26.07.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.05.2002 से दी जाती है।

एस पी वी नायर (एन टी आर -16479के), 06.06.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13.05.2002 से दी जाती है।

के आर एस नायर (एन टी आर -16481एफ), 07.10.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.06.2002 से दी जाती है।

एच एस बिष्ट (एन टी आर -16483एम), 11.09.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30.06.2002 से दी जाती है।

एम् रामानुजईया (एन टी आर -16501के), 20.11.2002 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.11.2002 से दी जाती है।

जी एस जी राव (एन टी आर -16484पी), 01.01.2003 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02.11.2002 से दी जाती है।

एम सी बिष्ट (एन टी आर -16441ए), 15.01.2003 परन्तु वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01.01.2003 से दी जाती है।

एन के विश्वकर्मा (एन टी आर -16442एच), 01.01.2003

एम श्रीवास्तव

ब्रिगेडियर

उप म.नि.स.से.चि. सेवा

सं. 449, दिनांक 02 जुलाई 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

**नियमित सेना**

**स्थायी आयोग**

मेजर से ले. कर्नल के मूल रैंक में (समय मान) द्वारा

आईसी-40526, ए के सरकार, ए डी आर्टी--12.06.2002

आईसी-40481, एस के सिंह, मैक इन्फैन्ट्री--12.06.2002

एस एस सिन्हा

उप निदेशक सेना सचिव

**वायु सेना**

सं. 450, दिनांक 02 जुलाई 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति मूल रैंक में करते हैं:--

**भारतीय वायु सेना**

**उड़ान पायलट शाखा**

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक में

एन जोशी (21237), 15 जून 2001 से

राजेश रनवान (21812), टोकर एस (21815), शर्मा, एस के (21825), मुकेश तिवारी (21828), मनीश पाहवा (21851), संदीप भार्गवा (21863), बी घोष (21865) तथा ए प्रकाश (21871) 13 जून 2002 से।

**उड़ान नेविगेटर शाखा**

फ्लाईट लेफ्टिनेंट स्कवाड्रन लीडर के मूल रैंक में

सिन्हा एम के (21969), रमेश एम के (21970), नागा सुन्दरम बी (21978) तथा घोष के के (21980) 13 जून 2002 से।

**प्रशासनिक शाखा**

फ्लाईंग आफ़ीसर की मूल स्कवाड्रन लीडर रैंक में

विवेक सिंह (23795) दिनांक 14 जनवरी 2000

वैमानिक इंजीनियरिंग (मैकेनिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवाड्रन लीडर के रैंक में

मनु शर्मा (22865), आशीष कुमार रे (22868) दिनांक 28 नवम्बर 2002 से।

वैमानिक इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल्स) शाखा

फ्लाईट लेफ्टिनेंट की मूल स्कवाड्रन लीडर के रैंक में

राजेश महिन्दरकर (22881), दिनांक 28 नवम्बर 2002 से।

एस. पी. कुटे

स्कवाड्रन लीडर

ए डी पी ओ 3(डी)

## वायु सेना शाखा

सं. 451, दिनांक 01 जुलाई 03.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

श्रीमती श्रद्धा ए कुमार, अनुवाद अधिकारी (रूसी/अंग्रेजी)--24 अक्तूबर 2002

सुधीर मोहन सेठी

संयु. निदे. का असैनिक

1	2	3
श्री पी के चड्ढा, डीडी (ओ एल)	31.01.2003	01.02.2003
श्री जेड एस भोडवाल, एस ओ	31.01.2003	01.02.2003
श्री एम बी मिश्रा, एस ओ	31.03.2003	01.04.2003
श्री एस के गुप्ता, एस ओ	31.03.2003	01.04.2003
श्री रोशन लाल, एस ओ	31.03.2003	01.04.2003
श्री एस के सिक्का, एस ओ	31.03.2003	01.04.2003

## नेवी ब्रांच

## नौसेना मुख्यालय

सं. 452, दिनांक 26 जून 03.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नौसेना मुख्यालय के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दी गई तारीख से सेवा-निवृत्त हुए और उन्हें पेंशन स्थापना में स्थानांतरित कर दिया गया:--

नाम	सेवा-निवृत्त की तिथि	पेंशन स्थापना में स्थानांतरण की तिथि
1	2	3
श्री एम सी महाराना, एस ओ	30.11.2002	01.12.2002
श्री सुरेन्द्र कुमार, पी एस	30.11.2002	01.12.2002
श्री गुरुबचन सिंह, पी एस	30.11.2002	01.12.2002
श्री एस के शर्मा, पी एस	31.12.2002	01.01.2003
श्री एस सी व्यास, पी एस	31.12.2002	01.01.2003
श्री एस सी गुप्ता, पी पी एस	31.12.2002	01.01.2003

सन्तोष दासगुप्ता

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

## थल सेना शाखा

सं. 453, दिनांक 02 जुलाई 03.--निम्नलिखित अधिकारी को जी ओ सी एम एण्ड जी एरिया के द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है।

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

एस एल 03646 मेजर आर एस मिश्रा, सिग्नल्स

कड़ी भर्त्सना एवं प्रोन्नति के लिए छह माह की सेवा का समपहरण

--13 मई 2002

के एस वर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एस एस 8सी

## (ARMY BRANCH)

No. 439, dated 30th June 2003.—The President is pleased to make the following appointment (Direct Permanent Commission) under AI 37/78 as amended vide AI 4/96:—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Probation)

DR-10553K Atul Bali, 08-04-2003.

DR-10554M (Ms) Parul Lohra, 17-04-2003.

The President is pleased to make the following appointments for a period of 05 years under 15/79 as amended 5/96:—

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt (On probation)

DS-12085N V Gopalakrishnan, 30-12-02.

DS-12086W Bhupinder Singh, 24-01-03.

DS-12088F Arun Kumar KV, 06-02-03.

DS-12089K Vishal Sharma, 08-02-03.

DS-12090Y Kamalpathey, K. 19-02-03.

DS-12092K Saugat Ray, 08-03-03.

DS-12093M (Ms) Varnana Krishnan, 10-03-03.

DS-12049P Vijaya Kumar R, 13-03-03.

J. L. SHARMA, Lt. Gen.  
DGDS

## (MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 440, dated 26 June 2003.—The President is pleased to appoint the following as 'Assistant Surveyor of Works/ Assistant Executive Engineer (QS&C)' with effect from the dates as indicated against their names :—

MES No. Name & Date

189657 Manoj Kumar, 14 Jun 2001 (F/N).

508668 Sanjay Kaul, 23 Jun 2001 (F/N).

303906 Rameshwar Dass Garg, 26 Jun 2000 (F/N).

NYA Vijay Ranjan, 27 Jul 2001 (F/N).

300405 Krishna Deo Mandal, 20 Jun 2001 (F/N).

405443 Vaibhav Vishwakarma, 19 Jun 2001 (F/N).

508385 Ramesh Chander, 26 Jun 2001 (F/N).

NYA Dilip Kumar Jha, 29 Aug 2001 (F/N).

607751 Nagendra Kumar, 30 Jun 2001 (F/N).

MES No. Name (Shri/Smt.) & Date

486776 Sanjeev Kumar, 22 Oct 2001 (F/N).

486778 Ram Nandan Kumar, 23 Aug 2001 (F/N).

NYA Satish Kumar Singh, 02 May, 2002 (F/N).

303891 Kewal Krishan Mujral, 30 May 2002 (F/N).

304756 Nand Kishore Malhan, 30 May 2002 (F/N).

304396 Charaj Lal, 26 Jun 2002 (F/N).

NYA Bharat Lal, 05 Aug 2002 (F/N).

NYA Amjad Khan, 22 Jun 2001 (F/N).

206326 Pares Nath Ghosh, 28 Jun 2002 (F/N).

206460 Kamal Kumar Chatterjee, 10 Aug 2002 (F/N).

304184 Tara Singh, 08 Jul 2002 (F/N).

206540 GC Dey, 13 Aug 2002 (F/N).

201333 Parimal Chaudhuri, 09 Dec 2002 (F/N).

405448 Santosh Kumar Jain, 29 Aug 2002 (F/N). (Only Twenty Three offers)

V. A. CHAVDA, Under Secy.

## AIR BRANCH

No. 441, dated 02 July 2003.—The President is pleased to award Permanent Commission and Brevet (On probation for one year) to the undermentioned officer wef the date mentioned against his name under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/S 24732/PP(O)/PC-II/25/US/D(Air-IV) dated 15 Jan 90 in the rank of Flying Officer. The officer is eligible for the grant of Flying Pay with effect from the date of grant of Permanent Commission & Brevet (On Probation) i.e. 16 Dec 2000.

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING (NAVIGATOR) BRANCH

Ex-Flight Cadet to be Flying Officer

Nitinkumar Popatrao Bhosale (26339) with effect from 16 Dec 2000.

The President is pleased to grant Permanent Commission (on probation) to the undermentioned officers wef the date mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

## INDIAN AIR FORCE

## ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Airmen to be Fg Offr

Vamsee Krishna Palavalli (27242), R Ashok Babu (27243), Manoj Kumar Singh (27244), Jimmy Johnson (27245), Ganesh Kumar S (27247), Pranaya Daga (27249), Raman Kumar (27250), Brahmananda Mishra (27251), Chitti Reddy Mohan Rao (27252), Manoj Kumar (27253) wef 21 Dec 2002.



## LOGISTICS BRANCH

Fg Offr Ajay Kumar Sharma (27268), Vijay Kumar (27269) wef 21 Dec 02.

## ADMINISTRATIVE BRANCH

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

Fg Offr Akshat Chaturvedi (27246), Rajesh Kumar MS (27254), M Vidya Sagar Reddy (27255), M Mayuran (27256), Vikas (27257), Rakesh Kumar (27258), Neeraj Gupta (27259), Shuaib Ahmed (27260), Manish Sharma (27261), Manoj Kumar (27262), Binaya Bhusan Meher (27263), Nitin Arora (27264), S Vasanth Kumar Pillai (27265) wef 21 Dec 02. Vikas Taneja (27248) wef 21 Dec 02.

## LOGISTICS BRANCH

Deepak Chaudhary (27266), D Ganapati (27267), Rishi Raj Mohindru (27270), Abhishek Adarsh (27271), Samrat Yadav (27272), Dinesh Kumar Tiwari (27273), Tula Ram (27274), Vikram Thakur (27275), Shakti Singh Kalaan (27276) wef 21 Dec 02.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min of Def letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 82.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Siddhartha Raj Paliwal (27310), Gajendra Pratap Singh (27311), Vivek Chaturvedi (27312), Mohit Sharma (27313), Kumar Pranshu (27314), Praveena Kumar Arlagadda (27315), M Dilli Babu (27316), B Karthikeyan (27317), M Karthikeyan (27318), Shashidhar (27319), Praveen Narasimhamurthy Donni (27320), Suvin Kumar SV (27321), Prashant Kumar Sharma (27322), Prasanna R Badiger (27323), Rajkumar P (27324), C Clement Chelliah Anantharaj (27325), FI No. 174 Gt-1-56 WS-31 Praveen Prabhakaran Nair (27326), Ravindra Agarwal (27327), Ramanath Harshan P (27328), Jothi Ravindra (27329), Dheeraj Yadav (27331), Talsaniya Hirenkumar Mansukhbhai (27332), Mukesh Yadav (27333) wef 06 Jan 03. Abhishek Bansal (27419) wef 16 Jan 03, Sathish S (27424), Kodali Jayarajsekhar Amarnath (27425) wef 17 Jan 03, Muvankara Muralidharan (27429), Prasoon Prabhakaran (27430), Anil Kumar P (27431) wef 20 Jan 03.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Perwaiz Aslam (27334), Sri Raman Muralidharan (27335), Prabodh Kumar Udaya Kumaran (27336), Pratyush Anand (27337), Mohit Kumar Verma (27338), Gaurav Shukul (27339), Pritam Kumar (27340), Gaurav Sharma

(27341), Kamlesh Kumar Jha (27342), Jayaprakash Prashanth (27343), Shivendra Nath (27344), Avinash Dubey (27345), Dharam Veer Yadav (27346), Chaitanya AGN (27347), Charles Solomon (27348), B Karthik (27349), Sankaraman Ramachandran (27350), Shanmugam Rajesh (27351), Subramanian Krishnamurthy (27352), Maddheker Sreenivasulu (27353), Pankaj Kumar Dey (27354), Gridhar Sridhar (27355), Chaitanya Pavan Voleti (27356), Santoshkumar Chavan (27357), Deepak Vyas (27358), Kishor N (27359), Saboor Ahmed (27360), Kiran Krishnan (27361), Abhishek Premi (27362), Chaket Gulati (27363), Sukhwinder Singh (27364), Madhur Thapliyal (27365), Sidharath Sharma (27366), S Prasad (27367), Vikram Singh Ulshai (27368), Prateek Vashistha (27369), N Praveen (27370), Wangkheimayum Khelenjit (27371), Saravanan Selvaraj (27372), Pankaj Yadav (27373), Jayaseelan Maria Cladius (27374), Sudipta Mukherjee (27375), Perla Venkata Rajesh (27376), Kiran Kumar Kenchanakuppe Paramashivaiah (27377), Oruganti Sudhir Babu (27378), Mohammad Javid Khan (27379), Anil Pant (27380), Thounaojam Brojen Singh (27381), Anoop Raj Varshney (27382), Muraleeswaran Rajendran (27383), Ajith Kumar Kayyath Yatheendra Das (27384), Deepak Garg (27385), Sachin Sonna (27386), Abdullah Zahid (27387), Hiran Pramodbhai Kothari (27388), Kesava Suresh Kumar (27389), Pritish Mishra (27390), Gurjap Singh (27391), Avijit Singh Chauhan (27392), MJ Balamurugan (27393) wef 06 Jan 2003.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On probation) to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) BRANCH

Denesh Herrick Joseph (27330) wef 06 Jan. 03.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL) BRANCH

Santhosh Kumar Vayakodan (27394), Viriyala Raghavendra Kishore (27395), Venu Valeri (27396), Shashank Sharma (27397), Sanu Nair KS (27398), Ansuman Samajpat (27399), Sunil Kumar Pandey (27400), L Rajagopal (27401), Rajender Singh (27402), Ponnappa MB (27403), Kshitij Vashistha (27404), Gaurav Pratap (27405), Vikram Chatta (27406), Vijay Malviya (27407), Anvar Shaji C (27408), Shahab Ahmad (27409), Aravindh Ramakrishnan (27410), Sandeep Yadav (27411), Tanuj Verma (27412), K Jayandan (27413), Moirangthem Amarjit Singh (27414), Gaurav Sharma (27415), Boon Mari Joseph Antony L (27416) wef 06 Jan 03, Satish Kumar (27432) wef 20 Jan 03.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) in the rank of Fg Offr wef the date mentioned against his name under the Provisions of AFI 2/73.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr Om Nath Choudhary (27147) wef 08 Jul 02.

The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission and Wings to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Ministry of Defence Letter No. Air HQ/S24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01. These officers are eligible for flying pay wef the dates of grant of PSSC & Wings i.e. 21 Dec 02.

## INDIAN AIR FORCE

## FLYING (PILOT) BRANCH

Ex Flight Cadets to be Flying Officers

Fg Offr Veena Saharan (27277), Teji Uppal (27278), Deepika Dadlani (27279), Nidhi Handa (27280) wef 21 Dec 02.

The President is pleased to award Provisional Short Service Commission to the undermentioned flight cadets in the rank of flying officer under the provisions of Govt. of India, Min of Def Letter No. Air HQ/S 24745/4/PP(O)/PC-I/184/DS/D(Air-III) dated 23 Apr 01.

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

Ex-Flt (Cdts to be flying officers)

Daxina Bharati Dhasmana (27281), Roopa P Pillai (27282), Prabhjot Kaur Ghuman (27283), Dipika Nehra (27284), Neeta Thakur (27285), Nalini Kalra (27286), Asmita Purushottam Dhawade (27287), N Chitra (27288) wef 21 Dec 02.

## LOGISTICS BRANCH

Anuradha (27289), Varsha Saxena (27290), Meenakshi (27291), Giney Thomas (27292), Aarti Bhadoaria (27293), Ruchi Khare (27294), Neetu Nehera (27295) wef 21 Dec 02.

The President is pleased to grant Branch Commission to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFI 1/91 and AFI corrigendum 4/2002.

## INDIAN AIR FORCE

## AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

Ex-Airmen to be Fg Offrs with ant-date of two years for the purpose of pay only

Naresh Kumar (27298), Bhikhaji Ramaji Dhabhi (27299), Arun Kumar Pandey (27300) wef 17 Jan 03.

## AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)

Hari Chand Mann (25814), N Nagrajan (25815), wef 18 Dec 99 Rajendra Singh (26681), Palanichamy Ganesan (26682), Ram Sakal Singh (26683) wef 14 Dec 2001, Ajit Kumar Ghosh (27301) wef 17 Jan 03.

S. V. KUTE, Sqn Ldr  
ADPO-3(D)

## (AIR BRANCH)

No. 442, dated 02 July 03.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer wef the date stated against their names who were granted permanent commission (on promotion).

## INDIAN AIR FORCE

## F(P) BRANCH

Hansel Joseph Sequeira (26081), Mandeep Chahal (26084), Shitij Gupta (26087), Karpurapu Anil Kumar (26090), Sandeep Barerjee (26091), Amit Bansal (26093), Jaswant Patel (26094), Satish Pawar (26096), Karkala Udaychandra Rao (26097), Amit Mahajan (26099), Valluparambil Rajan Rakesh (26101), Gaurav Kholia (26103), Jitin Hari Naik (26105), Vijay Tukaram Shelke (26108), Pranav Sisodia (26112), Abhinav Mahajan (26113), Anshu Puri (26114), Anshul Saxena (26118), Suraj Kumar (26119), Nitin Subramaniam (26120). Confirmation wef 17 Jun 2000.

S. V. KUTE, Sqn Ldr  
ADPO-3(D)

## ARMY BRANCH

No. 443, dated 21 June 2003.—The President is pleased to make the following promotion :—

## REGULAR ARMY

## CORPS OF AD ARTILLERY

To be Substantive Subedar Major (GD)

Subedar Ram Niwas (JC-223899W), 01 Apr 2003.

To be Substantive Subedar Major (TIFC)

Subedar Prema Kumar KB (JC-185943H), 05 Apr 2003/  
01 Apr 2003.\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Ghuranu Ram (JC-297583Y), 30 Dec 2002/  
03 Jul 2002.\*

Nb Sub Amrik Singh (JC-297422W), 02 Feb 2003/  
10 Jul 2002.\*

Nb Sub Jagdev Singh (JC-297543X), 20 Jan 2003/  
10 July 2002.\*

Nb Sub Khyali Ram Yadav (JC-297652K), 12 Mar 2003/  
27 Aug 2002.\*

Nb Sub Radesh Singh (JC-297782M), 11 Mar 2003/  
27 Aug 2002.\*

Nb Sub Ram Pujan Singh (JC-296985K), 04 Sep 2002/  
01 Sep 2002.\*

Nb Sub Taviad Parthing Bhai (JC-297506K), 01 Sep  
2002.

Nb Sub Hari Shankar Meena (JC-297702K), 13 Jan  
2003/01 Sep 2002.\*

Nb Sub Reghuja Kumar KR (JC-297901X), 22 Nov  
2002/01 Oct 2002.\*

Nb Sub Joginder Singh Bali (JC-297654P), 07 Feb 2003/  
11 Dec 2002.\*

Nb Sub Vani Venkata Prasad Potabattuni (JC-297932X),  
25 Jan 2003/21 Dec 2002.\*

Nb Sub Sukadeba Maharana (JC-297504Y), 01 Feb 2003/  
01 Jan 2003.\*

Nb Sub Yadunath Singh (JC-297461P), 26 Feb 2003/  
01 Feb 2003.\*

Nb Sub Ram Surat Yadav (JC-297650Y), 11 Feb 2003/  
01 Feb 2003.\*

Nb Sub Shankar Hulloli (JC-297680W), 10 Feb 2003/  
01 Feb 2003.\*

Nb Sub John KJ (JC-297657H), 10 Mar 2003/01 Feb  
2003.\*

Nb Sub Pirinti Jagannath Reddy (JC-297744W), 01 Feb  
2003.

Nb Sub Srikant Singh (JC-297891Y), 10 Feb 2003/  
01 Feb 2003.\*

Nb Sub Mundhe Ramkisan Sandipan (JC-297852A),  
06 Feb 2003/01 Feb 2003.\*

Nb Sub Raghuveer Singh Shekhawat (JC-297856W),  
01 Apr 2003/01 Feb 2003.\*

Nb Sub Nachim Ali (JC-297938Y), 14 Feb 2003/01 Feb  
2003.\*

Nb Sub Hoshiar Singh (JC-297308Y), 25 Mar 2003/  
16 Feb 2003.\*

Nb Sub Didar Singh (JC-297246K), 04 Apr 2003/01 Mar  
2003.\*

Nb Sub Bikramjeet Singh (JC-296457A), 12 Mar 2003/  
01 Mar 2003.\*

Nb Sub Ranjit Singh (JC-297615W), 01 Mar 2003.

Nb Sub Arbinda Pal (JC-297918L), 20 Mar 2003/01 Mar  
2003.\*

Nb Sub Veerappa Hugar (JC-297307W), 28 Apr 2003/  
21 Mar 2003.\*

To be Substantive Subedar (TIFC)

Nb Sub Rohtas Singh Yadav (JC-296788F), 17 Feb 2001/  
01 Jun 2003.\*

Nb Sub Vijaya Kumar HM (JC-297568K), 03 Jan 2003/  
01 Jan 2003.\*

Nb Sub Jagdish Prasad (JC-297594L), 01 Feb 2003.

Nb Sub Suraj Pal (JC-297591X), 01 Mar 2003.

Nb Sub Desh Ram (JC-297634F), 25 Mar 2003/ 01 Mar  
2003.\*

Nb Sub Ganesan S (JC-297629W), 08 Apr 2003/01 Apr  
2003.\*

Nb Sub Shyamadhar Singh Chauhan (JC-297637P),  
01 Apr 2003.

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-297595N), 01 Apr 2003.

Nb Sub Tara Chand (JC-297635K), 01 May 2003.

To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Balakrishnan MV (JC-297375K), 01 Jan 2003.

To be Substantive Subedar (CLK)

Nb Sub Rachhpal Singh (JC-296524A), 01 Apr 2003.

To be Substantive Subedar (SKT)

Nb Sub Mala Ram Bishnoi (JC-296786W), 01 Apr 2003:

\*(Gtd ante-date seniority wef)

(ARMY SERVICE CORPS)

ANIMAL TRANSPORT

To be Substantive Risaldar Major

P/A Ris Maj Ramesh Kumar (JC-680132W), 03.03.2003/  
01.03.2003.\*

To be Substantive Risaldar

P/A Ris N Prem Kumar (JC-680377M), 28.08.2002/  
01.08.2002.\*

P/A Ris N C Mitra (JC-680363M), 01.11.2002.

P/A Ris Krishna Babu (JC-680364P), 20.01.2003/  
01.01.2003.\*

P/A Ris Kameswar Saw (JC-680367H), 05.02.2003/  
01.01.2003.\*

P/A Ris Rud Mal (JC-680375P), 01.02.2003.

P/A Ris D. R. Gurjar (JC-680381P), 01.02.2003.

To be Naib Risaldar (ASH)

Dfr Mukhtiar Singh (No. 3379946M now JC-680629W),  
25.01.2003/01.10.2002.\*

Dfr Keshav Kumar (No. 6468375W now JC-680631L),  
24.02.2003/01.11.2002.\*

Dfr Daya Krishan (No. 6467857Y now JC-680632X),  
27.01.2003/01.11.2002.\*

Dfr Dinesh Chandra Pandey (No. 6467651F now JC-680630M), 22.01.2003/01.01.2003.\*

Dfr Om Prakash (No. 6470672H now JC-680634Y),  
17.02.2003/01.01.2003.\*

Dfr Chakra Dhari (No. 6464771P now JC-680635F),  
09.01.1.2003.

Dfr Sita Ram (No. 6467885L now JC-680640M),  
10.03.2003/01.02.2003.\*

Dfr Sheoji Ram Meena (No. 6468284W now JC-680641P), 07.02.2003/01.02.2003.\*

Dfr Dilip Kumar Ghosh (No. 6468122F now JC-680642N), 01.02.2003.

Dfr Sreedharan S. (No. 6468170F now JC-680643A),  
17.02.2003/01.02.2003.\*

Dfr Bala Krishnan Nituvot (No. 6468157X now JC-680644H), 15.02.2003/01.02.2003.\*

Dfr Poongali Das R. (No. 6464847K now JC-680647W),  
01.03.2003.

Dfr Room Singh (No. 6469462W now JC-680650W),  
25.03.2003/01.03.2003.\*

#### To be Naib Subedar (SHGD)

Hav SK Mishra (No. 6372368H now JC-680628K),  
10.01.2003/01.10.2002.\*

Hav MK Uthaiiah (No. 6372436L now JC-680636K),  
08.02.2003/01.11.2002.\*

Hav AK Singh (No. 6372622F now JC-680637K),  
24.02.2003/01.12.2002.\*

Hav Girish Chander (No. 6372969N now JC-680638N),  
31.12.2002/01.12.2002.\*

Hav Chabi Lal Thapa (No. 6373031M now JC-680639M),  
01.12.2002.

Hav Chandraprakash (No. 6372949A now JC-680645L),  
03.03.2003/01.02.2003.\*

Hav G Dhyalan (No. 6386889F now JC-680646W),  
21.03.2003/01.02.2003.\*

\*(Gtd ante-date seniority without effect on pay and allces  
wef.).

#### CORPS OF SIGNALS

##### To be Naib Subedar (F of S)

Hav N J Thomas (No. 15378036W now JC-375006F),  
1st Feb 2003.

##### To be Naib Subedar (OP Spec)

Hav Balendra Singh (No. 14234879Y now JC-374887Y),  
1st Dec 2002.

Hav Bijendra Singh (No. 14233757H now JC-374888F),  
1st Dec 2002.

Hav KN Prajapati (No. 14234103L now JC-374889K),  
1st Dec 2002.

Hav Kashmir Chand (No. 14237515X now JC-374890Y),  
1st Dec 2002.

Hav Sant Ram (No. 14241165N now JC-374891F), 1st  
Dec 2002.

Hav C Jharishbabu (No. 14238826X now JC-374892K),  
1st Dec 2002.

Hav Narayan Nayakoji (No. 14242786Y now JC-374893M), 1st Dec 2002.

Hav Damodar Singh (No. 14242291M now JC-374894P), 1st Dec 2002.

Hav Brij Bhushan Singh (No. 14240483L now JC-374895X), 1st Dec 2002.

Hav SK Sharma (No. 14242839M now JC-374896A),  
1st Dec 2002.

Hav Suresh Chander (No. 14243473M now JC-374897H),  
1st Dec 2002.

Hav Tejpal (No. 14271155Y now JC-374898L), 1st Dec  
2002.

Hav Bijoy Konwar (No. 14246772W now JC-374899N),  
1st Dec 2002.

Hav Rama Shanker Mishra (No. 14241270K now JC-374900X), 1st Dec 2002.

Hav Sarvan Kumar (No. 14242256K now JC-374901A),  
1st Dec 2002.

Hav Raj Kumar (No. 14242750A now JC-374902H),  
21st Jan 2003.

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002  
without effect on pay and allowances).

Hav Devan Nair S (No. 14247066F now JC-374903L),  
1st Dec 2002.

Hav Amal Kumar Roy (No. 14247419W now JC-374904N), 1st Dec 2002.

Hav Naeemuliah Khan (No. 14247393M now JC-374905W), 1st Dec 2002.

Hav Pravindakshan Pillai (No. 14232848A now JC-374906Y), 1st Dec 2002.

Hav RPS Chauhan (No. 14241855X now JC-374907F),  
1st Dec 2002.

Hav Tara Singh (No. 14243145Y now JC-374908K), 1st  
Dec 2002.

Hav JC Kaushik (No. 14299716Y now JC-374909M),  
1st Dec 2002.

Hav Suresh Bhagat (No. 14236399N now JC-374910F),  
1st Dec 2002.

Hav SK Tiwari (No. 14231603X now JC-374911K), 1st  
Dec 2002.

Hav Haridas CN (No. 14236457M now JC-374912M),  
1st Dec 2002.

Hav S Chandra Sarawat (No. 14245327L now JC-  
374913P), 23rd Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002  
without effect on pay and allowances).

Hav Dev Dutt (No. 14240256L now JC-374914X), 4th  
Dec 2002.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002  
without effect on pay and allowances).

Hav Anil Kumar (No. 14248892N now JC-374915A),  
1st Dec 2002.

Hav Rakshpal Singh Tomar (No. 14249017X now JC-  
374916H), 1st Dec 2002.

Hav Narayanan Karappath (No. 14249934F now JC-  
374917L), 1st Dec 2002.

Hav Manoharan Chandra (No. 14249964Y now JC-  
374918N), 17th Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002  
without effect on pay and allowances).

Hav Ramu Siddappa Shirol (No. 14242657Y now JC-  
374919W), 1st Dec 2002.

Hav Avtar Kapoor (No. 14250477L now JC-374920L),  
1st Dec 2002.

Hav Diwan Singh (No. 14245436X now JC-374921N),  
13th Feb 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 2002  
without effect on pay and allowances).

Hav Gopal Dass (No. 14250692W now JC-374922W),  
1st Dec 2002.

Hav M Subramanian (No. 14250708W now JC-  
374923Y), 1st Dec 2002.

Hav P N Shukla (No. 14250730F now JC-374924F), 1st  
Dec 2002.

Hav Amin Chand (No. 14250856F now JC-374925K),  
1st Dec 2002.

Hav Ramashry Kumar Arun (No. 14250777M now JC-  
374926M), 1st Dec 2002.

Hav Joginder Kumar (No. 14250921W now JC-374927P),  
1st Dec 2002.

Hav SS Rawat (No. 4059279A now JC-374928X), 1st  
Dec 2002.

To be Naib Subedar (Cik GD)

Hav Rajendra Singh Yadav (No. 14245887X now JC-  
374841W), 1st Oct 2002.

Hav Achyuta Nanda Jena (No. 14245908H now JC-  
374855W), 1st Nov 2002.

Hav Radhey Lal (No. 14246152A now JC-374872W)  
1st Dec 2002.

Hav Bhajan Singh (No. 14246400L now JC-374873Y),  
1st Dec 2002.

Hav Paras Nath Rai (No. 8025550L now JC-374929A),  
1st Jan 2003.

Hav Kishori Prasad (No. 14237258L now JC-374930P),  
1st Jan 2003.

Hav Nandlal Chandel (No. 14246540X now JC-  
374931X), 1st Jan 2003.

Hav Kavindra Mahto (No. 14247628N now JC-  
374932A), 1st Jan 2003.

Hav Abhiapal Singh (No. 14247686X now JC-374933H),  
1st Jan 2003.

Hav Ram Charan (No. 14247341W now JC-374935N),  
1st Jan 2003.

Hav Satya Bir (No. 14247477A now JC-374936W), 1st  
Jan 2003.

Hav Badri Prasad (No. 14247883A now JC-374936K),  
1st Feb 2003.

Hav Saru Ram Saikia (No. 14237771M now JC-  
374957M), 1st Feb 2003.

Hav Pabitra Mohan Sahoo (No. 14249206F now JC-  
374976X), 1st Mar 2003.

Hav Bipin Bihari Sethy (No. 14249416F now JC-  
375036Y), 1st Mar 2003.

To be Naib Subedar (SKT)

Hav Balwan Singh (No. 14251271A now JC-374958P),  
1st Feb 2003.

To be Naib Subedar (GD)

Hav Nirmal Singh (No. 14240193N now JC-374939K),  
1st Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Sep 2000  
without effect on pay and allowances).

Hav Rajinder Prasad (No. 14239486M now JC-374945X),  
1st Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Mar 2003  
without effect on pay and allowances).

Hav Manohar Lal (No. 14243717P now JC-374963Y),  
1st Jun 2002.

Hav J A Tuka Ram (No. 14243639H now JC-374948L), 1st Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Brij Mohan (No. 14241164L now JC-374241N), 1st Dec 2002.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 19th July 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Arun Ioy Prasad (No. 14237001A now JC-373770N), 29th Dec 2002.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 27th July 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Sinha (No. 14246225F now JC-374782F), 16th Jan 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Gulab Prasad Sharma (No. 14245376N now JC-374814M), 1st Sep 2002.

Hav Anant Ram (No. 14235882L now JC-374845M), 1st Oct 2002.

Hav Niranjana Behera (No. 14244164W now JC-374968Y), 1st Dec 2003.

(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 2002 without effect on pay and allowances).

Hav Kundan Singh (No. 14244264F now JC-374848A), 1st Oct 2002.

Hav Ram Vilas (No. 14237824A now JC-374849H), 1st Oct 2002.

#### ARMY SERVICE CORPS

#### (MECHANICAL TRANSPORT)

To be Naib Subedar (MT)

Hav Ghan Shyam (No. 13832743X now JC-662488F), 7th Feb 2003\*.

Hav Dilip Kumar Das (No. 13867788W now JC-662489K), 11th Feb 2003\*.

Hav D Hazarika (No. 13864403H now JC-662490Y), 4th Feb 2003@.

Hav Devi Saran Sharma (No. 13873933W now JC-662491F), 01 Nov 2002.

Hav Kishan Lal Malik (No. 13874484F now JC-662492K), 07 Feb 2003.£

Hav Daya Shankar Prasad (No. 13864555K now JC-662493M), 01 Feb 2003.£

Hav Sukumaran P (No. 13864605K now JC-662494P), 17 Feb 2003.£

Hav Vijay Singh (No. 13875591P now JC-662495X), 14 Feb 2003.£

Hav Kaushal Kishore (No. 13865542Y now JC-662496A), 01 Nov 2002.

Hav Rajendra Prasad Singh (No. 13865609M now JC-662497H), 01 Nov 2002.

\*(Date of seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces)

@(Date of seniority wef 01 Dec 2001 without effect on pay and allces)

£(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Hav Ajab Singh (No. 13875657A now JC-662498L), 30 Jan 2003.£

Hav Rajan K (No. 13865653W now JC-662499N), 10 Feb 2003.£

Hav Tarkeshwar Singh (No. 13865769M now JC-662500 X), 22 Jan 2003.&

Hav Subhash Chandra Mishra (No. 13874531 N now JC-662501A), 27 Jan 2003.&

Hav Mahendra Singh Chhillar (No. 13870893 X now JC-662502H), 27 Jan 2003.&

Hav Dharam Deo Singh (No. 13874953Y now JC-662503L), 01 Dec 2002.

Hav Madan Prasad Rai (No. 13864471W now JC-662504N), 22 Jan 2003.&

Hav Anil Kumar Gogai (No. 13864381P now JC-662505W), 06 Feb 2003.&

Hav Ram Singh (No. 13875275 W now JC-662506Y), 26 Feb 2003.&

Hav Dulanand Mandal (No. 13864988 F now JC-662507F), 21 Feb 2003%

Hav Hans Raj (No. 13874954F now JC-662508K), 21 Feb 2003%

Hav Satish Chandra Sharma (No. 13875308M now JC-662509M), 21 Feb 2003%

£(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

&(Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on pay and allces)

%(Date of seniority wef 01 Feb 2003 without effect on pay and allces)

Hav Daya Ram (No. 13875175L now JC-662443 F), 12 Dec 2002.\*

Hav V Balasubramanian (No. 13864540F now JC-662444K), 10 Dec 2002.@

Hav Krishan Kumar (No. 13874622X now JC-662445M), 08 Dec 2002.£

Hav Radha Kanta Singha (No. 13875186X now JC-662446P), 09 Dec 2002.£

Hav Chandan Singh (No. 13869328N now JC-662447X), 01 Sep 2002.

Hav Birendra Singh (No. 13865341A now JC-662448A), 12 Dec 2002.£

Hav Digesh Ch Paul (No. 13875449L now JC-662449H), 01 Sep 2002.

Hav Amar Singh Daroga (No. 13875386N now JC-662450X), 12 Dec 2002.£

\*(Date of seniority wef 01 Jul 2002 without effect on pay and allces)

@(Date of seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces)

£(Date of seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces)

Hav A Alexander (No. 13865391L now JC-662451A), 10 Dec 2002.£

Hav Dilip Kumar Nayak (No. 13865412K now JC-662452H), 01 Sep 2002.

Hav Prabhu Nath Ray (No. 13875493P now JC-662453L), 16 Dec 2002.£

Hav Sukhandu Paramanick (No. 13875528A now JC-662454H), 18 Dec 2002.£

Hav Suresh Chandra Tripathi (No. 13875408F now JC-662455W), 09 Dec 2002.&

£(Date of seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces)

&(Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on pay and allces)

Hav Jadeja Hari Har Sinh Kirit Sinh (No. 13868872H now JC-662356Y), 26 Dec.2002.\*

Hav Braj Bihari Ojha (No. 13874751X now JC-662457F), 12 Dec 2002.@

Hav Pundalik Patil Bharama (No. 13869174M now JC-662458K), 11 Dec 2002.@

Hav Rajan PK (No. 13865315A now JC-662459M), 01 Sep 2002.

Hav Suresh Chander (No. 13865346Y now JC-662460F), 09 Dec 2002.@

Hav Shyam Bihari Chauhan (No. 13865447M now JC-662461K), 24 Dec 2002.@

Hav Mahabir Singh (No. 13865467A now JC-662462M), 20 Dec 2002.@

Hav Tika Ram Biswakarama (No. 13873044F now JC-662463P), 21 Jan 2003.£

Hav Pravakar Sundaray (No. 13867713Y now JC-662464X), 03 Feb 2003.&

Hav Ransing Popat Manohar (No. 13873791M now JC-662465A), 25 Jan 2003.£

Hav Umesh (No. 13869369X now JC-662466H), 26 Dec 2002.£

\*(Date of seniority wef 01 Aug 2002 without effect on pay and allces)

@(Date of seniority wef 01 Sep 2002 without effect on pay and allces)

£(Date of seniority wef 01 Oct 2002 without effect on pay and allces)

&(Date of seniority wef 01 Mar 2001 without effect on pay and allces)

Hav Pran Nath Tiwari (No. 13870717A now JC-662467L), 01 Oct 2002.

Hav Purnanda Gogai (No. 13863840W now JC-662468N), 26 Dec 2002.£

Hav Shyam Thapa (No. 13867864X now JC-662469W), 31 Dec 2002.%

Hav Hari Har (No. 13867990K now JC-662470L), 23 Jan 2003.%

Hav Diwan Singh (No. 13864671M now JC-662471N), 27 Jan 2003.%

Hav Md Reazul Hoque (No. 13874713F now JC-662472W), 26 Dec 2002.%

Hav Ranbir Singh (No. 13875625X now JC-662473Y), 24 Jan 2003.%

Hav Ram Dhaneshwar Bhagat (No. 13864881M now JC-662474F), 26 Dec 2002.%

Hav Rameshwar Dayal (No. 13875627H now JC-662475K), 01 Nov 2002.

Hav Rajesh Kumar Shukla (No. 13875635F now JC-662476M), 01 Nov 2002.

Hav Bishwanath Choubey (No. 13865660M now JC-662477P), 27 Jan 2003.%

Hav Krishan Singh (No. 6470556A now JC-662478X), 24 Jan 2003.%

Hav Dev Narayan Singh (No. 13865672F now JC-662479A), 27 Dec 2002.%

Hav Shiv Nath Singh (No. 13875784P now JC-662480P), 31 Jan 2003.Rs

Hav Amar Singh (No. 13875027A now JC-662481X), 01 Dec 2002.

Hav Hoshiyar Singh (No. 13865711P now JC-662482A), 22 Jan 2003.Rs

Hav Gurmish Singh (No. 13864662L now JC-662483H),  
24 Jan 2003.Rs

Hav Ram Singh (No. 13875025P now JC-662484L), 01  
Dec 2002.

Hav Ram Babu Sharma (No. 13864553Y now JC-  
662485N), 30 Dec 2002.Rs

Hav Sadanand (No. 13864527X now JC-662486W), 01  
Dec 2002.

Hav Abdul Salam (No. 13868724X now JC-662487Y),  
31 Jan 2003.3/4

£(Date of seniority wef 01 Oct 2002 without effect on  
pay and allces)

% (Date of seniority wef 01 Nov 2002 without effect on  
pay and allces)

Rs (Date of seniority wef 01 Dec 2002 without effect on  
pay and allces)

3/4 (Date of seniority wef 01 Jan 2002 without effect on  
pay and allces)

R. CHATURVEDI  
Under Secy.

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 444, dated the 30th Jun, 03—The President is pleased  
to make the following promotions:—

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Om Saran (14530673H now JC-757353L), 30 Jan 2003/  
04 Jan 2003.\*

Nem Singh (14530559L now JC-757383L), 15 Feb 2003/  
23 Dec 2002.\*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Md Kudrat Hussain (14554294L now JC-757351A), 11  
Feb 2003/01 Jan 2003.\*

Pratap Chand Sayal (14553372L now JC-757160L), 11  
Sep 2002/01 Aug 2002.\*

Dayanidhi Nayak (14553420A now JC-757301P), 30 Dec  
2002/01 Dec 2002.\*

Subhash Chandra Gochhi (14553429P now JC-757304H),  
01 Jan 2003.

Himansu Sekhar Jha (14597720F now JC-757299H), 01  
Jan 2003/01 Oct 2002.\*

Rudra Bhan Tiwari (14553432P now JC-757350X), 27  
Jan 2003/01 Jan 2003.\*

Paranthanan G (14553416X now JC-757300M), 01 Jan  
2003/01 Oct 2002.\*

Hav to be Nb Sub SK Tech

Gopal Krishna Verma (14533247A now JC-757322L),  
18 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Ram Chandra Yadav (14541308F now JC-757326F), 27  
Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Raghunath Sharma (14543641Y now JC-757364X), 01  
Feb 2003

Balraj Singh (14543587W now JC-757324W), 16 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Deva Rajan V (14538986W now JC-757325Y), 12 Feb  
2003/01 Dec 2002.\*

Bachan Singh Negi (14541229M now JC-757346P), 07  
Feb 2003/01 Jan 2003.\*

Sanjeev Kumar Pathak (14605091M now JC-757332P),  
31 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Hawa Singh (14543630M now JC-757345M), 21 Jan  
2003/01 Jan 2003.\*

Avdesh Kumar Yadav (14475643H now JC-757323N),  
15 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Dinesh Yadav A (14604794F now JC-757327K), 17 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Shamsher Singh (14543631P now JC-757348A), 25 Jan  
2003/01 Jan 2003.\*

Shankar Patil (14606535X now JC-757330K), 13 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Raj Kumar Dhiman (14543628P now JC-757344K), 15  
Jan 2003/01 Jan 2003.\*

Surendran PR (14606533M now JC-757329P), 14 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Gopal Lal Srivastow (14604797P now JC-757328M),  
16 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Brandavan Sahu (14543486H now JC-757217P), 21  
Oct 2002/01 Sep 2002.\*

Hav to be Nb Sub Armr

Sunder Prakash (14543495K now JC-757314M), 06 Feb  
2003/01 Dec 2002.\*

Karam Chand (14543555N now JC-757315P), 14 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Prodip Kumar Rajkhwa (14543796N now JC-757317A),  
04 Feb 2003/01 Dec 2002.\*

Dharam Singh (14543405X now JC-757313K), 12 Jan  
2003/01 Dec 2002.\*

Ashok Kumar Rai (14544484K now JC-757343F), 18  
Feb 2003/01 Jan 2003.\*

Mant Prasad (14543969A now JC-757333X), 04 Feb  
2003/01 Dec 2002.\*



Prakash Chandra Pathak (14543374H now JC-757312F), 23 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Jai Nath Prasad Singh (14543802W now JC-757318H), 15 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Ravindra Kumar Pandey (14543806M now JC-757320A), 22 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Bikram Sundi (14543163A now JC-757311Y), 18 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Ram Lal (14543921M now JC-757321H), 16 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

Manoranjana Adak (14543873X now JC-757319L), 16 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub VM(MV)

Basava Raj R Rotti (14533375X now JC-757551W), 01 Mar 2003/04 Jan 2003.\*

Shiv Sharan D (14532911H now JC-757335H), 04 Feb 2003/01 Nov 2002.\*

Bali Ram Pandey (14532428Y now JC-757334Y), 04 Feb 2002/01 Nov 2002.\*

Tippanna Muchnam (14533373M now JC-757339Y), 28 Jan 2003/21 Dec 2002.\*

NBV Nair (14533344X now JC-757338W), 01 Feb 2003/21 Dec 2002.\*

Deo Charan Thakur (14533405K now JC-757358K), 01 Feb 2003.

Ramlal Yadav (14532357H now JC-757270A), 29 Dec 2002/01 Nov 2002.\*

Balram Singh (14533530N now JC-757356Y), 01 Feb 2003/04 Jan 2003.\*

Tija Oraon (14531417N now JC-757268H), 06 Jan 2003/01 Oct 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Kaur Singh (3376256X now JC-757557X), 25 Feb 2003/15 Dec 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub Elect. (MV)

SN Mukherjee (14534954W now JC-757310W), 08 Feb 2003/01 Nov 2002.\*

Kasi Nath VP (14535167F now JC-757280K), 23 Dec 2002/01 Dec 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub TEM (GCE)

Jenil K (14640784H now JC-757368N), 06 Feb 2003/14 Oct 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub Ftr AFV AD

Dina Bandhu Pal (14556818A now JC-757275Y), 24 Dec 2002/01 Oct 2002.\*

Jai Nandan (14557610K now JC-757261Y), 01 Dec 2002

Jay Dayal Singh (14541894P now JC-757263K), 01 Dec 2002.

Gambhir Singh (14557525F now JC-757277K), 31 Dec 2002/01 Nov 2002.\*

Manohar Lal (14557269X now JC-757276F), 22 Dec 2002/01 Oct 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub Welder

RP Mishra (14536541L now JC-757362M), 01 Feb 2003.

#### Hav to be Nb Sub UPHOL

Dhruv Narayan Jha (14555711Y now JC-757390F), 14 Feb 2003/23 Nov 2002.\*

Bharat Singh (14555995N now JC-757340N), 10 Feb 2003/19 Jan 2003.\*

#### Hav to be Nb Sub Limb Maker

Patade Pandurang Shripati (14550283F now JC-757278M), 20 Dec 2002/01 Nov 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub Draft Man

Raghubir Singh (14532506L now JC-757266X), 21 Dec 2002/01 Dec 2002.\*

#### Hav to be Nb Sub Machinist

Jagadeesha KK (14623582L now JC-757224L), 31 Dec 2002/14 Oct 2002.\*

Subhash Chandra Lall (14533406M now JC-757254H), 01 Jan 2003/01 Nov 2002.\*

#### HMT to be Nb Sub Tech 'A' VEH

Gopal Singh Bhaduria (14570176F now JC-757499Y), 02 Mar 2003.

Jagdish Singh Yadav (14570932H now JC-757496L), 03 Mar 2003/02 Mar 2003.\*

Raj Bir (14562895L now JC-757489P), 03 Mar 2003/02 Mar 2003.\*

Surendra Singh Sharma (14564152F now JC-757490K), 02 Mar 2003.

Jeewan Ram Sewda (14571104K now JC-757498W), 02 Mar 2003.

Satish Kumar Singh (14570215P now JC-757493X), 02 Mar 2003.

Swapan Kumar Roy (14570893P now JC-757495H), 02 Mar 2003.

#### HMT to be Nb Sub Tech 'B' VEH

Md Rabiul Hoque Molla (14568310H now JC-757148K), 03 Sep 2002/01 Aug 2002.\*

Dharma Raj Singh (14572468H now JC-757228F), 26 Nov 2002/01 Oct 2002.\*

Radha Krishnan (14556140X now JC-757283X), 16 Jan 2003/11 May 2002.\*

Ajab Singh (14571789N now JC-757286L), 02 Jan 2003/01 Oct 2002.\*

Upendra Nath Tiwari (14573067A now JC-757289Y), 01 Jan 2003/01 Nov 2002.\*

Ram Sabha Chaubey (14573665X now JC-757290N), 30 Dec 2002/01 Nov 2002.\*

Anil Kumar S (14573634X now JC-757292Y), 01 Jan 2003/01 Nov 2002.\*

Upendra Singh (14573871F now JC-757291W), 23 Dec 2002/01 Nov 2002.\*

Roop Kishore (14584979Y now JC-757511P), 02 Mar 2003.

Suresh Chandra (14578102F now JC-757487K), 02 Mar 2003.

Erappaij (14566968K now JC-757295M), 02 Jan 2003/05 Nov 2002.\*

S Mariappan (14574030L now JC-757417L), 24 Feb 2003/05 Jan 2003.\*

Chandreshwar Pandey (14563137A now JC-757388F), 22 Feb 2003/08 Dec 2002.\*

Raja Ram Singh (14571978X now JC-757373Y), 22 Mar 2003/01 Oct 2002.\*

Mithilesh Pandey (14572400F now JC-757374F), 22 Feb 2003/01 Oct 2002.\*

Aboy Kumar Biswas (14564706P now JC-757503W), 02 Mar 2003.

Indra Pal (14578465L now JC-757488M), 02 Mar 2003.

Birbal Ram (14586097W now JC-757512X), 03 Mar 2003/02 Mar 2003.\*

Lakhhir Singh (14561600X now JC-757387Y), 09 Mar 2003/15 Dec 2002.\*

Sunil Kumar (14575493K now JC-757466N), 20 Feb 2003/13 Feb 2003.\*

R Jaganathan (14561614X now JC-757502N), 03 Mar 2003/02 Mar 2003.\*

Surender Singh (14577011L now JC-757486F), 02 Mar 2003.

Shyam Prakash (14582684K now JC-757510M), 03 Mar 2003/02 Mar 2003.\*

Divakaran K (14544447M now JC-757500H), 02 Mar 2003.

HMT to be Nb Sub Tech 'C' Veh

Surender Kumar (14572801W now JC-757507M), 02 Mar 2003.

Krishan Dutta (14563533W now JC-757505F), 02 Mar 2003.

Ajit Singh (14578609H now JC-757282P), 03 Jan 2003/01 Dec 2002.\*

\*(Gtd. ante-date seniority).

S K KHURANA, Under Secy.

No. 445, dated 27th June 2003—The President is pleased to make the following promotions:

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Naib Subedar

BHM Shinde Manohar K (2775933P) now (JC-826119H), 01 May 2003.

To be Substantive Subedar

Sub Gane Laxman Rao (JC-826067X), 01 May 2003.

BALRAM VERMA, Under Secy.

No. 446, dated 30th June 2003—The President is pleased to make the following promotion (SSC) under AI 15/79 as amended vide 5/96:

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantive Major

DS-11981P (Ms) Minu Sidhu—23.03.2003.

DS-11983A Alexander M John—28.03.2003.

J. L. SHARMA, Lt. Gen, DGDS

No. 447, dated 01 July 2003—The President is pleased to make the following promotions:

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& Equivalent) to be Maj Gen (& Equivalent)

GC Boruah (MR-4602-L)—04.10.2002 with notional seniority from 01.10.2002 without effect on pay & pension.

The grant of substantive promotion to the rank of Maj Gen promulgated in the Gazette Notification published on 05 Apr 2003 in Part-I, Section-4 of Gazette of India to the extent it relates to the officer is hereby cancelled.

P. BANDOPADHYAY, AVM, Addl. DGAFMS

No. 448, dated 01 July 2003—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)**

Surg Cmde (& Equivalent) to be RADM (& Equivalent)

P Sivasdas (MR-2251-H) (75112-H)—01.01.2003.

Col (& Equivalent) to be Brig (& Equivalent)

Mrs. S Mukherjea (MR-4449-A)—01.06.2002 with notional seniority from 02.05.2002 without effect on pay and pension.

Maj/Lt Col(TS) to be Lt Col (Selection Grade)

Tara Chand (NTR-16431-W)—07.07.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.04.2002.

SC Sharma (NTR-16497-M)—26.07.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.05.2002.

SPV Nair (NTR-16479-K)—06.06.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 13.05.2002.

KRS Nair (NTR-16481-F)—07.10.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.06.2002.

HS Bisht (NTR-16483-M)—11.09.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 30.06.2002.

M Ramanujaiah (NTR-16501-K)—20.11.2002 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.11.2002.

GSG Rao (NTR-16484-P)—01.01.2003 with notional seniority without effect on pay and pension from 02.11.2002.

MC Bisht (NTR-16441-A)—15.01.2003 with notional seniority without effect on pay and pension from 01.01.2003.

NK Vishwakarma (NTR-16442-H)—01.01.2003.

M. SRIVASTAVA, Brig. Dy. DGAFMS(P)

No. 449, dated 02 July 2003—The President is pleased to make the following promotions:

**REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION**

Majors to be Substantive Lt. Col (Time Scale)

IC-40526 AK Sarkar, AD Arty 12.06.2002.

IC-40481 SK Singh, Mech Inf 12.06.2002.

S. S. SINHA, Dy. Dir. DAMS-8A

**AIR FORCE**

No. 450, dated 02 July 2003—The President is pleased to make the following Substantive Promotion:

**INDIAN AIR FORCE**

**F(P) BRANCH**

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

N Joshi (21237) wef 15 June 2001.

Rajesh Ranwan (21812), Tokekar S (21815), Sharma SK (21825), Mukesh Tewari (21828), Manish Pahwa (21851), Sandeep Bhargava (21863), Ghosh B (21865) and A Prakash (21871) wef 13 June 2002.

**F(N) BRANCH**

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Sinha MK (21969), Ramesh MK (21970), Nagasundaram B (21978) and Ghosh KK (21980) wef 13 June 2002.

**ADM BRANCH**

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

Vivek Singh (23795) wef 14 January 2000.

**AE(M) BRANCH**

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Manu Sharma (22865), Ashish Kumar Ray (22868), 28 November 2002.

**AE(L) BRANCH**

Flt Lt to be Substantive Sqn Ldr

Rajesh Mahindrakar (22881), 28 November 2002

S. V. KUTE, Sqn Ldr ADPO-3(D)

**AIR FORCE BRANCH**

No. 451, dated 01 July 2003—The President is pleased to accept resignation from service in respect of following officer:

**TRANSLATION OFFICER (R/E)**

Smt. Shradha A Kumar—24 Oct 2002.

S. M. SETHI, JDPIC

**NAVY BRANCH  
NAVAL HEADQUARTERS**

No. 452, dated 26 June 2003—On attaining the age of superannuation, the following officers of NHQ have retired from Government service from the dates mentioned against their names and transferred to Pension Establishment :—

Name	Date of Retirement	Date of transfer to Pension Establishment
1	2	3
(a) MC Maharana, SO	30.11.2002	01.12.2002
(b) Surinder Kumar, PS	30.11.2002	01.12.2002
(c) Gurbachan Singh PS	30.11.2002	01.12.2002
(d) SK Sharma, PS	31.12.2002	01.01.2003

1	2	3
(e) SC Vyas, PS	31.12.2002	01.01.2003
(f) SC Gupta, PPS	31.12.2002	01.01.2003
(g) PK Chadha, DD(OL)	31.01.2003	01.02.2003
(h) ZS Bhodwal, SO	31.01.2003	01.02.2003
(i) MB Mishra, SO	31.03.2003	01.04.2003
(j) SK Gupta, SO	31.03.2003	01.04.2003
(k) Roshan Lal, SO	31.03.2003	01.04.2003
(l) SK Sikka, SO	31.03.2003	01.04.2003

SANTOSH DAS GUPTA, Dy. Chief Admn. Officer (A)

#### ARMY BRANCH

No. 453, dated 02 July 2003—The undermentioned officer awarded the following punishment by GOC M&G Area.

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

SL 03646 Maj RS Mishra, Sigs

Severely reprimanded and to forfeit six months service for the purpose of promotion.—13 May 2002.

KS VERMA, Jt. Dir. MS 8C